



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2112/SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

कलेक्टर

जिला - खंडवा (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - खंडवा (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)

संदर्भ: आपका पत्र क्र. 809/खनिज/2022 दिनांक 10/10/22


राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 756वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 में खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..... खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्र 809/खनिज/2022 दिनांक 10/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज-रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 600वीं बैठक दिनांक 18.10.2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदनुसार जिला कलेक्टर, खंडवा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई-मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

क्र. /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संचालक, प्रशासन/तकनीकी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016 की ओर सूचनार्थ।


सदस्य सचिव





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

1



## DISTRICT SURVEY REPORT OF KHANDWA DISTRICT

AS PER NOTIFICATION NO. S.O. 141(E) NEW DELHI, THE 15TH  
JANUARY, 2016 OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND  
CLIMATE CHANGE



**DIRECTORATE OF GEOLOGY & MINING  
REGIONAL OFFICE INDORE**

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 18 अक्टूबर 2022**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 08.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.41 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि  | राशि रु. में   |
|---|----------------|
| ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रों के डिजिटल अध्ययन हेतु प्रोजेक्टर 02                      | 60000          |
| ग्राम जमुनिया वीरान के शासकीय प्राथमिक स्कूल के छात्रों को स्कूली जूते/ मोजे वितरण 246 की कुल संख्या छात्रों) | 70000          |
| <b>कुल</b>  | <b>1,30000</b> |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

| क.         | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान                 | पौधों की प्रजातियाँ   | मात्रा (संख्या में) |
|------------|---|---|---------------------|
| 1          | बैरियर जोन  | सागौन, खमेर, नीलगिरी सुबबूल बांस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।                      | 800                 |
| 2          | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)                   | कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सु), करंज ट्री गार्ड के साथ- एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ । | 400                 |
| 3          | जमुनियान स्कूलवीरा- पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में | नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।                          | 300                 |
| 4          | जमुनियावीरान- एवं चपला सर के ग्राम बासियों में वितरण  | जामुन, मुनगा, कटहल नीवू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।           | 1500                |
| <b>योग</b> |   |   | <b>3000</b>         |

**12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा -**

**अ. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खंडवा - (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर)**

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र. 809 दिनांक 10/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट- खंडवा (अन्य गौण खनिज - रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

| Mineral  | Other than Sand  |
|--|--|
| DSR received from District Collectorate (Mining) | Vide District Collectorate ( Mining) Office, Khandwa , No. 809 dated 10.10.2022. |

600वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 18 अक्टूबर 2022

SEAC meeting dated  
18/10/22

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर -08 (पेज न0. 31-58) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबिल (पेज न0. 87-101) में दे दी गई है।

आज दिनांक 18.10.22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सचिन वर्मा, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्र0 809/खनिज/2022 दिनांक 10/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति खंडवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज-रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

**ब. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शाजापुर – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)**

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 509 दिनांक 12/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-शाजापुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

| विषय   | संदर्भ क्र. सं.   |
|--|---|
| DSR received from District Collectorate (Mining) | Vide District Collectorate ( Mining) Office, Shajapur, No. 509 dated 12.10.2022.  |
| SEAC meeting dated 18/10/22                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर क्र0. -09 (पेज न0. 25-49) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है।</li> <li>• जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंत में टेबल (पेज न0. 81-85) में दे दी गई है।</li> </ul> |



कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक 800/खनिज/2022  
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 10/10/2022

सदस्य सचिव,  
राज्य पर्यावरण समाघात,  
निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)  
पर्यावरण परिसर अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)

विषय:- जिला खण्डवा के संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) प्रस्तुत करने के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, जिला खण्डवा खण्डवा मे खनिज रेत की कोई भी खदान स्वीकृत नही होने से अतः (रेत खनिज को छोड़कर) अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में (SEAC) बैठक दिनांक 30-09-2022 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव दिये गये थे। रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिजों की प्रथक से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में (SEAC) द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन उपरांत अनुशंसा सहित (DSR) रिपोर्ट मूलतः आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR)


  
10-10-22  
Om

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला खण्डवा (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक 801/खनिज/2022  
प्रतिलिपी:-

खण्डवा, दिनांक 10/10/2022

1- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
10-10-22  
Om

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला खण्डवा (म.प्र.)



# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

2

## INDEX

| Sl.no | Particulars  | Page no. |
|-------|--|----------|
| 1     | INTRODUCTION AND GENERAL PROFILE OF THE DISTRICT   | 04 -09   |
| 2     | PHYSIOGRAPHY AND GEOLOGY OF THE DISTRICT   | 10- 15   |
| 3     | MINERAL RESOURCES  | 16- 17   |
| 4     | DRAINAGE AND IRRIGATION PATTERN OF THE DISTRICT  | 18- 20   |
| 5     | LAND USE PATTERN THE DISTRICT  | 21- 25   |
| 6     | SURFACE WATER AND GROUND WATER SECENARIO OF THE DISTRICT                                   | 26-29    |
| 7     | RAINFALL OF THE DISTRICT   | 30-30    |
| 8     | OVERVIEW OF MINING ACTIVITY IN THE DISTRICT  | 31-58    |
| 9     | DETAILS OF THE MINING LEASE OF THE DISTRICT  | 59-68    |
| 10    | DETAIL OF THE REVENUE AND ROYALTY MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT                        | 69-69    |
| 11    | DETAIL OF THE PRODUCTION OF MINOR MINERAL MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT                | 70-70    |
| 12    | LIST OF LETTER OF INTENT HOLDERS MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT ALONG WITH THE VALIDITY | 71-74    |
| 13    | DETAILS OF THE ECO-SENSITIVE AREA IF NAY IN THE DISTRICT                                   | 75-75    |
| 14    | IMPACT ON THE ENVIRONMENT (AIR ,WATER NOISE,SOIL,FLORA AND FAUNAFO THE DISTRICT            | 76-78    |
| 15    | RISK ASSESSMENT NAD DISASTER MANAGEMENT  | 79-83    |
| 16    | DETAIL OF THE HEALTH ISSUES IN THE DISTRICT  | 84-86    |
| 17    | PLANTATION THE DISTRICT  | 87-104   |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक तकनिका अधिकारी  
घरते कलेक्टर  
जिला पूरव विमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

3

मानचित्र :-

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. जिला खंडवा की नक्शों में स्थिति | 2. लेड यूज मानचित्र                  |
| 3. ड्रेनेज मानचित्र                | 4. नदियों का मानचित्र                |
| 5. भू-विज्ञानिक मानचित्र           | 6. जिला संसाधन मानचित्र              |
| 7. भू-जलीय जिला मानचित्र           | 8. खनिज रेत परिवहन मार्ग का मानचित्र |


State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(SEIAA)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

## 1. INTRODUCTION AND GENERAL PROFILE OF THE DISTRICT



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकार  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

5

Prior to the States reorganization, i.e., on 1st November 1956, the District was officially known as Nimar District and formed part of Mahakoshal region of the erstwhile Madhya Pradesh. The western part of old Prant Nimar originally held by the **Holkar**, became a part of **Madhya Bharat**, when that state was formed in the year 1948. As on the reorganization of States, Madhya Bharat region was merged in Madhya Pradesh, the western part of old Prant Nimar eventually became a part of Madhya Pradesh. This tract with its headquarters at **Khargone**, also happened to retain its old name of **Nimar**, and being to the west of the District of former Nimar of Mahakoshal region, was named as **Nimar(West)** or **West Nimar**, while the District was officially renamed as Nimar(East) or East **Nimar** from 1st November, 1956. On August, 15, 2003 the District has been divided into Khandwa & Burhanpur district. Khandwa district also known as East Nimad is situated in the south -western part of Madhya Pradesh.

The district has an area of 6206 km<sup>2</sup>, and a population 1,309,443 (2011 census). The district lies between north latitude 21°31' and east longitude of 75°57'27" and 77°13" Falling in survey of India toposheet No. 55B, 55C and E. Khandwa District lies in the Nimar region, which includes the lower valley of the Narmada River, Kherkhali River, Choti Tawa River, Shiva River. The Narmada forms part of the northern boundary of the district, and the Satpura Range forms the southern boundary of the district. Burhanpur District, to the south, lies in the basin of the Tapti River. The pass through the Satpuras connecting Khandwa and Burhanpur is one of the main routes connecting northern and southern India, and the fortress of Asirgarh, which commands the pass, is known as the "Key to the Deccan". Betul and Harda districts lie to the east, Dewas District to the north, and Khargone District to the west. The Indira Sagar Project on Narmada River near Punasa village in Khandwa district is unique project with the largest reservoir in the country. The district is divided into three tehsil and seven blocks. There are 716 villages.

A mineral wise district survey report (DSR) of Khandwa District for sand mining or river bank Mining and mining for other minor minerals has been prepared as mentioned in the Gazette of India (Extraordinary) published in the Para 7 (ii) annexure 10 of the notification, dated 15 January 2016, released by the Ministry of Climate Change,

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
खान्ने कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

Forest and Environment, Govt. of India. This report has been prepared for Sand and other minor minerals of Khandwa district. The District Survey Report forms the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The District Survey Report (DSR) shall be prepared for each minor mineral in the .

**No sand mines are located in District Khandwa. Only mines of stones and other minor mineral are found in district of Khandwa.**

- District separately and DSR draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the SEIAA. The Report shall be updated once every five years.
- The main objective of the DSR for sustainable Mining Guideline is following:
  1. Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed;
  2. identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures
  3. Installations where mining should be prohibited in the mines
  4. Calculation of annual rate of replenishment of sand
  5. Allowing time for replenishment after mining in that area. Location & Extent of Khandwa District

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(E.P.O.)  
Parvavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

7

The district known as West Nimar comes under the Indore division of Madhya Pradesh and situated in the south-west part of the state. It is spread over an area of 8,030 square kilometres. The district has a triangular shape with its vertex, the farthest angle lying to the west. The district along with the adjoining East Nimar (Khandwa) & Burhanpur district, derives its name from the old division of Prant Nimar which comprised the whole Narmada valley from the Ganjal river on the east to the Hiranpal or Deers leap' on the west. In both places the Vindhyan and the Satpura ranges run down to the river. Khandwa city famous for the production of cotton and chilly is built on the banks of River Kunda. The people of Khandwa speak Namadiits the primary language in west Nimar, Bareli and Palya, the language of Bhil is spoken in the central territory of Madhya Pradesh; Bareli Rathwi, Bhil is written in Bhilali and Devanagari script.

Khandwa District population in 2022 is 1,465,106 (estimates as per aadhar uidai.gov.in Dec 2020 data). As per 2011 census of India, Khandwa District has a population of 1,310,061 in 2011 out of which 674,329 are male and 635,732 are female. Literate people are 731,615 out of 432,259 are male and 299,356 are female. People living in Khandwa District depend on multiple skills, total workers are 612,976 out of which men are 369,676 and women are 243,300. Total 160,061 Cultivators are depended on agriculture farming out of 109,847 are cultivated by men and 50,214 are women. 221,197 people works in agricultural land as labor, men are 121,944 and 99,253 are women. Khandwa District sex ratio is 943 females per 1000 of males. Next Khandwa District Census will be in 2022-2023.

### 1.1 Connectivity of District

Khandwa is 90 km away from Barwani, 80 km from Khargon and 140 km from Indore. The district is connected to the cities of Indore, Khargone, Barwani, Dhar, Jhabua, Jalgaon and Dhulia by road. The Agra-Mumbai National Highway (NH-3) passes through the district.

### 1.2 Bus Route

Regular bus service is available to Khandwa from other major cities of the State Like Bhopal Barwani , Indore

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCC)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

8

### 1.3 Flight Route

There are no regular flights from other major cities of the country to Khandwa. Nearest airport is Indore Airport. City Nearest Airport Distance Khagrone Indore Airport (IDR), Indore, Madhya Pradesh 114 km away Khagrone Jalgaon Airport, Jalgaon, Madhya Pradesh 234 km away

### 1.4 Train Route

Khagrone does not have any Railway station. Nearest option is Khandwa. Meter gauge railway route from the eastern part of the district is the Delhi - Jaipur - Indore - Khandwa - Hyderabad route. The important railway stations (Narrow gauge) in the district are Barwaha and Sanawad. Khandwa and Indore is the nearest Broad gauge railway station

### 1.5 City Nearest Railway Station Distance

Khagrone Khandwa (KNW), Khandwa, Madhya Pradesh 76 km away Khagrone Burhanpur(BAU),Burhanpur, Madhya Pradesh 81 km away Khagrone Bhusawal (BSL), Bhusawal, , Madhya Pradesh 88 m away

| SR.NO. | ITEMS                                 | STATISTIC            |
|--------|---------------------------------------|----------------------|
| 1      | <b>General Information</b>            |                      |
|        | (i) Geological Area                   | 6206 km <sup>2</sup> |
|        | <b>(ii) Administrative Division :</b> |                      |
|        | Number of Tehsils                     | 5                    |
|        | Number of Blocks                      | 7                    |
|        | <b>Number of villages</b>             | 716                  |
|        | <b>(iii) Population</b>               | 1465106              |
|        | (iv) Normal Annual Rainfall (mm)      |                      |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)




## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

9

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | <b>Geomorphology</b>                     |  |
|   | <b>Major Physiographic Units :</b>       | Structural hills of deccan traps, flood plain, valley fills, inter montane depression, pediment (Volcanic) |
|   | <b>Major Drainages</b>                   | Narmada, Chhota Tawa, Sukta, Bhim Nadi   |
| 3 | <b>Land Use in Ha ('000)</b>             |  |
|   | (a) Forest Area                          | 283.72 Ha  |
|   | (b) Net area sown                        | 300.60 Ha  |
|   | (c) Gross cropped area                   | 384.80 Ha  |
| 4 | <b>Major Soil Types</b>                  | Black Cotton   |
| 5 | <b>Principal Crops</b>                   | Paddy, Wheat, Jowar, Maize, Gram & Soyabean  |
| 6 | <b>Predominant Geological Formations</b> | Archaean, Bijawars, Vindhyan, Deccan Traps and Alluvium.   |

  
State Level Planning & Impact  
Assessment, Khajuraho, M.P.  
(E-5, Arera Colony)  
Paryavaran Harisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक स्वीलेका अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

10

### 2. PHYSIOGRAPHY AND GEOLOGY OF THE DISTRICT

Structural hills of vindhyans, denudation hills of Deccan traps are predominant in Khandwa district. Apart from these above geomorphic features like flood plain, alluvial plain, valley fills, intermountain depressions, pediment (Volcanic) are also seen in the district. The District lies, for the most part, on the uplands between and valleys of the two major rivers, the Narmada and Tapti are flowing parallel to each other from east to west through the District. The Hatti hill range border and overlooks the Tapti valley in the south throughout its length in the District. Maximum and minimum height above mean sea level is 905.56 m and 180.00 m respectively. The major natural division of the District correspond to the two distinct physiographic division, viz.,

- The Narmada Valley
- The main Satpura ranges

The general height of the contour in Nimar (East) is about 1,000 Ft. (304.8 meters) above means sea level but the elevations range from 618 Ft. (188.4 meters) in the bed of the Narmada in the extreme north west to 3,010. (917.5 meters) at Pipardol peak of the Hatti range.

#### 1.Narmada Valley

The Narmada flows through the northern part of the District, roughly in an eastwest direction. Among the streams joining the Narmada within the District from the north and Khari and Kanar(Lohar). These are the only perennial streams in the tract. The hills in the Chandgarh and Selani tracts rise conspicuously from 220' to 500' (61 to 152 meters) above the adjacent plains. The general height of Selani tracts is about 750' (228 meters) and that of Chandgarh is about 850'(285 meters). The north south chain of hills in Chandgarh and Selani tracts continues across the Narmada in the south. The conspicuous of these is sand stone hill. It occupies the elbow formed at the

State Level  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
जिला सर्वेक्षण अधिकारी  
खंडवा  
राज्य कलेक्टर  
खंडवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

11

junction of the Chhota Tawa and the Narmada and which rise about 500'(152.4 meters) above the surrounding country. The southern tributaries of the Narmada flows towards north or north west revealing the general slope of that part of Narmada Valley, which lies within the District. The average height in the eastern part of valley is about 800'(243 meters). The plain country in the extreme west, below Mandhata, lies at a level of about 700'(213.4 meters) above Mean Sea Level. The catchment area of the Chhota Tawa is at about 1,000 (304.8 meters) above Mean Sea Level.

### 2 Tapti Valley

The Tapti flows in a narrow valley between two parallel ranges of the Satpura in the southern parts of the District. It stretches to about 50 miles from East-north to west-Southwest.

### 3.Satpura Range

The Satpura is the name collectively to a complex system of ranges and high lands about 600 miles long and 100 miles(161 Km.) wide which lie to true south of the Narmada from the western coast of India to the Amarkantak hills in the east. This system includes ranges as far south as the southern maikal range or Saletakeri hills.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक सचिव (अतिरिक्त)  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

12

### GEOLOGY

The geological succession of the district is as below: -

| AGE                                  | FORMATION            | LITHOLOGY  |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| Pleistocene to Recent                | -                    | Laterite /Black Cotton Soils                       |
| Cretaceous to Eocene                 | Deccan Trap          | Basaltic Flows with intertrappeans                 |
| -----                                | Un-conformity        | -----  |
| Upper-Precambrian To lower Paleozoic | Vindhyan Super Group | Quartzite, Sand stone shale & Conglomerate         |
| -----                                | Un-conformity        | -----  |
| Upper-Precambrian                    | Bijawar Group        | Dolomite, Chert breccia, Quartzite & Conglomerate. |
| -----                                | Un-conformity        | -----  |
| Lower-Precambrian                    | Archean              | Granite/Granite Gneisses                           |


State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
कार्से कलेक्टर  
जिला पूर्व निमांड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
राज्य कलेक्टर  
जिला मुख्यालय खंडवा (M.P.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

14

### ARCHEANS:

The oldest rocks of the area are represented by the gneissic complex of the Archean system, exposed chiefly in the eastern part of the area. Archean rock succession includes granite gneisses, schists and acid intrusives as quartz vein. The granite gneisses are exposed near Gullas Subhanpura, Punghat Kalan Barmali andaround Khamla villages. The schists are exposed as inclusions within the graniticgneisses. At various places, these are traversed by quartz veins and Doleritic dykes of variable dimensions. The important localities that bear the Granites are, Jhagariya, Barmalai, Anjania, Paradev, Badkeshwar, Punghat, Baldi, etc. Dolerites are medium grained and vary in colour from dark grey to greenishgrey. These are restricted to lower levels of Narmada Rift Valley.

### BIJAWARS :

The Bijawar Group of rocks are exposed in Chandgarh reserve forest area, inand around Mathni, South of Jatam and in village Jamuniya. These areunconformably overlying the Basement Granite/Granite Gneisses. Bijawars arecharacterized by Dolomite, Chert Breccia and Quartzits. The Breccia is found ascapping over the Dolomites exposed right from Naoghata to Jamuniya, Bhogani, Darkali and Khamla. The Bijawar Dolomites are the oldest member of the group and are foundinterspersed with Quartz Veins and Veinlets, which ultimately deteriorates the qualityof Dolomites. The Dolomite is highly Siliceous in nature when found in contact withBasalts. The Breccia is intermixed with Quartz, Chert and Agate at numerous places. It is ferruginous in nature. Red shale is noticed around south of village Patkheda andBandhaniya. The boulders of Quartzitic Sandstone are reported to occur over theBijawars due south of Narmada Rift Valley.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPIAA)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
आरक्षे कलेक्टर  
जिला पूर्व विभांड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

15

### VINDHYANS:

The Bijawars are overlain by the rocks of Vindhyan Super Group. It is comprised of sub horizontal or weakly folded beds of Quartzites, Quartzitic sandstone, Shale and Conglomerate. Generally these rocks are exposed along the river Narmada. The outcrops of Quartzitic sandstone are found to occur near Onkareshwar, Punasa and Jamoti area. Siltstones, Shale as intercalations within the sandstone beds are seen in the area. The shales are exposed below the sandstone beds. These rocks are overlain by thick conglomerate bed. The conglomerate bed has been seen in the south of Tikari and in Kekariya nala near Dharikotla.

### DECCAN TRAP :

The major Portion of the district is occupied by the Deccan Trap Basalts. Spheroidal weathering is common feature of the district. The Deccan Trap Basalts are having thin capping of black cotton soil. The Deccan Trap Basalts are found to have Inter-trappean Limestone at various places. These are exposed in west of Punasa, Daulatpura, Piprimal, North of Bijalpur Kalan, near the confluence of Chhota Tawa with Narmada, river Sarai, Rekhla Chikhla and south of Punghat. The Deccan Trap Basalts are found to expose in the low-lying areas and important localities are Junapani, Pangariya, Khudiyamal.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

16

### 3. MINERAL RESOURCES

There are not many minerals of economic importance as the greater part of the district is covered with deccan trap basalt, However some mineral like Dolomite, Limestone, Clay, Calcite, Granite, Rock Phosphate have been recorded.

#### DOLOMITE:


The dolomite in the district extends in the south of Narmada river near Bhogani, Naoghata, Jamunia, Darkali, Khamla, Chandgarh, Bakapalas and Mathni etc. The most of the deposit is coming under the submergence of Indira Sagar Dam and presently it is only of academic importance.

#### LIMESTONE:

A small occurrence of Intertrappean Limestone has been located at a distance of about 1 km. North-East of Ekhand village. Other localities of Intertrappean Limestone with fossils Physa Principi are Dang, Dantha, Punasa, Daulatpura, Piprimal, Sarai, Junapani, Jamunia and Darkali. The Gastropods "Physa" have been seen in the Intertrappean beds near Punasa. The thickness of the beds varies from 1-1.5 m. It shows less developed crystallinity at few places.

#### CLAY:

The occurrences of clay pockets are found ~~State occur near Ekhand village.~~ Numerous other localities bear small pockets of clay, though of uneconomic use.

  
State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

17

### GRANITE AND DOLERITE:

The intrusive granite in gneissic complex and dolerite in Bijawar formations have been located near Jhagaria, Barmalai, Punghat, Pangharia, Barkeshwar, Padiadev, Baldi and Bori villages along Narmada river. Presently all these localities are coming under the submergence of Indira Sagar Dam.

### BUILDING MATERIAL:

Vast resources of Deccan Trap Basalt are served as inexhaustible source of ballast & building material and the sand quarried from the Narmada river is also being utilized for the same purpose. The sand quarry located near Omkareshwar and Purni areas presently the Purni area is coming in the submergence area of Indira Sagar dam.

### ROCK PHOSPHATES:

Minor occurrences of Rock Phosphate associated with Chert breccia, Dolomites have been reported near Chandgrah but as per analysis report the rock phosphate is not of economic importance.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पृथ निभाड खण्डवा (म.प्र.)




## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


18

### 4. DRAINAGE AND IRRIGATION PATTERN OF THE DISTRICT

Drainage :

The drainage of the District falls under the Narmada and the Tapti river systems. The water-parting line between the two river-systems runs along the crest of the northern range of the Satpura. The major portion of the District, north of this line, except the low tracts of Chandgarh and Selani, drains towards the north onto the Narmada through the Chhota Tawa and Kaveri rivers and a large number of small streams. The tracts north of the Narmada slope towards the south and the drainage is represented by the rills and rivulets joining the Narmada to the south. The area between the northern and the southern forks of the Satpuras in the District, mostly falling in Burhanpur Tehsil, is drained by a large number of streams descending into a hollow country (syncline) occupied by the Tapti. As the southern boundary of the District lies chiefly along crest of the Hatti range, the southern slopes of the range drain into the left bank tributary of the Tapti river in the east. Major part of Khandwa district falls under the Narmada basin. Narmada and its tributaries form the main source of surface water in the area. Narmada flows along the northern boundary of the district main rivers which drains the area of the district which drains the area of the district are Chhota Tawa, Sukta & Bhim Nadi.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


  
सहायक खनिज अधिकारी  
कार्से कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

19



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

20

### DRAINAGESYSTEM WITH DESCRIPTION OF MAIN RIVERS

| SERIAL NO. | NAME OF THE RIVER     | TOTAL LENGTH IN THE DISTRICT(IN KM) | PLACE OF ORIGIN           | %AREA DRAINED IN THE DISTRICT  |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| 1          | Narmada               | Approx.120                          | Amarkantak                | about 90% of the area of district is drained by tributaries of Narmada river |
| 2          | Tapi                  | Approx. 50                          | Multai in Betul dist.     | about 10% of the area of district is drained by Tapi.                        |
| 3          | Choti Tawa-Sukta-Bhim | Approx. 166                         | Originate in the district | about 65% of the area of district is drained by Choti Tawa-Sukta-Bhim        |
| 4          | Kaveri-Ajnal          | Approx.40                           | Originate in the district | about 20% of the area of district is drained by Kaveri-Ajnal                 |
| 5          | Pahari Nadi           | Approx. 10                          | Originate in the district | about 5% of the area of district is drained by Pahari Nadi                   |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

21

### 5. LAND USE PATTERN OF THE DISTRICT

Khandwa district comprises of 07 development blocks, 5 Tehsils, 422 gram panchayats and 710 villages. Total geographical area of the district is 775616 Hectare, net sown area under agriculture is 303189 and forest area is 283661 ha., In district 185727 ha. area is wasteland and 75890 ha. area under other uses. The total agricultural land found in Khandwa district area is 303189 hac. and total geographical area of the district 775616 ha. these are the lands primarily used for farming and for production of food, fiber, and other commercial and horticultural crops. The total forest area is 283661 ha. In Khandwa district among the total geographical area of the district 775616 hac. The highest forest area in 146089 in Khalwa block where is 51.50% in district. In Khandwa district 185727 ha. Wasteland of the total geographical area of 775616 ha. Wasteland is described as degraded land which can be brought under vegetative cover with reasonable effort and which is currently underutilized and land which is deteriorating for lack of appropriate water and soil management or an account of naturalcauses .


State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
घरते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023



*[Signature]*  
 सहायक खनिज अधिकारी  
 वास्ते कलेक्टर  
 जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)

*[Signature]*  
 State Level Environmental  
 Assessment Agency, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

23

### Soil cover

The nature & Characteristics of soils is dependent primarily on Relief of the area which influences the variation in soil formation. The soils of Khandwa district are classified on medium black soils under the broad classification of soil of India & are low fertility soils. There are alluvial deposits constituting gravel sand; silt or clay sized unconsolidated alluvium found along the narrow strips of rivers. A map showing Soil types is presented


State Level Environment Impact  
Assessment, M.P.  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


सहायक खनिज अधिकारी  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)




# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

24



  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

25

### Agriculture, Irrigation and Cropping patterns

Over a period, geographic pattern of agricultural land use are the outcome of concurrent interaction between the variable combinations of natural condition and human circumstances. Primarily, these are influenced by natural condition and thereafter affected by human circumstances because of their colonizing capability. The human circumstances are mainly responsible for dynamism in agricultural land use or changing cropland occupancy. Therefore, efficient cropland occupancy, say cropping pattern, implies the most successful use of agricultural land, consequent upon development of irrigation facilities and application of modern methods of farm technology. The key to the most important aspect of land use lies in the relation of population to land. The crux of the review, therefore, refers to the study of the problems in use of land by man. According to R.H. Best, the term land use deals with the spatial aspects of human activities on the land and with the way in which the land surface is adapted or could be adapted, to serve human needs.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
धारते कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

26

### 6. SURFACE WATER AND GROUND WATER SECENARIO OF THE DISTRICT

#### Depth to Water levels Pre-monsoon water level

The pre-monsoon depth to Water levels ranges from a minimum of 2.7 meters below ground evel (mbgl) in Punasa block to a maximum of 15.5 m bgl in Chhegoan Maakkan block of Khandwa district. About 10% very shallow water levels up to 3-6m bgl have been recorded in a small patch in Northern and central part of district. About 60 % of monitoring wells recorded water level in the range of 6-9 m bgl category, spreading in patches and major pockets in the north-western and eastern part of area. About 15% of monitoring wells recorded water level in the depth range of 9-12 m bgl occurring in broad patches all over the region. Deeper ground water levels ranging 12-15 m bgl constituting only about 15% of wells in this category have been observed only in small pocket in the northern and south-western part of Khandwa district. Ground water levels of more than 15.5 m bgl have been recorded in the eastern part of the area. The pre-monsoon Depth to Water Level map has been shown in the Map.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


सहायक खनिज अधिकारी  
घरत कलकत्ता  
जिला पूर्य निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

27



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
कार्गिल कलेक्टर  
जिला पूर्व निनाड खण्डवा (म.प्र.)




## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

28

### Post-monsoon water level

The post-monsoon depth to Water levels ranges from a minimum of 1.1 m belowground level in Punasa block to a maximum of 7.6 m bgl Chhegaon Makhan block of Khandwa district. Very shallow water levels up to 3 m bgl have been recorded in patches scattered all over the district contributing to about 41.46% of total monitoring wells in Khandwa district. About 40% of monitoring wells recorded water level in the range of less than 3 m bgl category, majorly occupying the central portion and patches in the north-eastern, and southern part of area. About 50% of monitoring wells recorded water level in the depth range of 3-6 m bgl occurring in pockets all over the region. About 10% Depth to water levels ranging 6-9 m bgl has been noticed predominantly in northern and western part of the district. Ground water levels of more than 9 m bgl have not been recorded in Khandwa district. The post-monsoon Depth to Water Level map has been shown in the Map.


  
State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

29



State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EIA)  
Paryavaran Parisar  
Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला प्लानिग खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

30

### 7. RAINFALL OF THE DISTRICT

The Rainfall data of the district of last 3 years is given as below:~

| YEARWISE RAINFALL OF DISTRICT |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| YEAR                          | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|                               | 1226.5    | 946       | 900       |

State Level District Surveyor  
Assessment Agency, M.P.  
(EP&S)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंटे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

31

## 8.OVERVIEW OF MINING ACTIVITY IN THE DISTRICT

जिले में स्वीकृत पत्थर उत्खनिपट्टे की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है

| क्रमांक | खनिज का नाम   | पट्टाधारी का नाम व पता एवं मोबाईल नंबर   | ग्राम/ खदान का नाम | खदान का स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक | खसरा             | रकबा हे० | की         |            | प्रथम नवकरण अवधि |            | खदान प्रारंभ होने की तिथि | कार्य शील/ अकार्य शील | स्वयं के उपयोग हेतु/ विक्रय हेतु | पर्यावरणीय स्वीकृति की तिथि | खदान की स्थिति अक्षांश/ देशांश   | खनन की विधि सतह पर या भूमिगत खनन |
|---------|---------------|--|--------------------|--|------------------|----------|------------|------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|         |               |  |                    |  |                  |          | कब से      | कब तक      | कब से            | कब तक      |                           |                       |                                  |                             |  |                                  |
| 1       | 2             | 3  | 4                  | 5  | 6                | 7        | 8          | 9          | 10               | 11         | 12                        | 13                    | 14                               | 15                          | 16   | 17                               |
| 1       | पत्थर/ गिट्टी | श्री राकेश पिता श्री कचरुमल बसल निवासी रामकृष्ण गंज खण्डवा जिला खण्डवा<br>9827006648 | देशगोवा            | 17906-7/17.12.2018                       | 1189, 1190, 1214 | 7.49     | 20.06.2008 | 19.06.2018 | 20.06.2018       | 19.06.2028 | 20.06.2008                | शिथिल                 | विक्रय हेतु                      | 05.05.2012                  | N 21°53'07.9"<br>E 76°10'26.8"<br>N 21°53'07.8"<br>E 76°10'27.5"<br>N 21°52'47.2"<br>E 76°10'36.8"<br>N 21°52'48.0"<br>E 76°10'40.0" | सतह पर                           |

State of Madhya Pradesh  
Department of Geology  
(G.O.)  
Prayeevaran Parisar  
E-5, Azad Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

|   |                  |   |                      |                                  |                   |            |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  |                |  |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|----------------|--|
|   |                  |   |                      |                                  |                   |            |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  | N 21°53'01.1"  |  |
|   |                  |   |                      |                                  |                   |            |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  | E 76°10'25.8." |  |
|   |                  |   |                      |                                  |                   |            |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  | N 21°53'01.1"  |  |
|   |                  |   |                      |                                  |                   |            |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  | E 76°10'35.9." |  |
| 2 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री राकेश बंसल<br>निवासी रामकृष्ण गंज<br>जिला खण्डवा<br>9827006648   | केहलारी              | 4672-7<br>3/02<br>05.2015        | 768<br>769<br>770 | 3.00       | 02.03.<br>2004 | 01.03.<br>2014 | 02.03.<br>2014 | 29.<br>03.<br>2004 | 02.03.<br>2014 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 13.<br>03.<br>2015 | N 21°58'26.6"<br>E 76°27'57.7"<br>N 21°58'26.8"<br>E 76°28'02.8"<br>N 21°58'22.0"<br>E 76°28'04.6"<br>N 21°58'19.4"<br>E 76°27'59.7" | सतह<br>पर      |  |
| 3 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री आशुतोष पिता श्री<br>नंगीनचन्द बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाज मंडी के पिछे<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br>8989898931 | वीरपुरकुण्डे<br>श्वर | 5001-6<br>002/1<br>8.04.<br>2016 | 56,104            | 14.15<br>0 | 26.04.<br>2016 | 25.04.<br>2026 | निरंक          | निरंक              | 26.04.<br>2016 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 06.<br>01.<br>2017 | N 21°49'29.4"<br>E 76°24'48.6"<br>N 21°49'28.6"<br>E 76°25'02.5"<br>N 21°49'21.3"  | सतह<br>पर      |  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
खारसे कलेक्टर  
खण्डवा पूर्व विभाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

|   |                  |  |           |                            |     |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |   |           |
|---|------------------|--|-----------|----------------------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
|   |                  |  |           |                            |     |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    | E 76°24'53.7."<br>N 21°49'13.8"<br>E 76°24'51.6."<br>N 21°49'09.4"<br>E 76°24'39.6."<br>N 21°49'09.4"<br>E 76°24'39.6." |           |
| 4 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री छगन ऐतालकर<br>पिता श्री देवराम<br>ऐतालकर निवासी<br>रामनगर खण्डवा<br>जिला खण्डवा<br>9340073812 | नहाल्दा   | 1431/<br>03.09.<br>2009    | 748 | 2.00 | 29.05.<br>2010 | 30.05.<br>2020 | 30.05.<br>2020 | 29.<br>05.<br>2030 | 30.05.<br>2020 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 04.<br>01.<br>2021 | N21°50'27'.3"<br>E76°24'52.3"<br>N21°50'21'.7"<br>E76°24'54.9"  | सतह<br>पर |
| 5 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री राकेश बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाज मंडी के पीछे                | भोजाखेड़ी | 6263-6<br>4/09.<br>04.2018 | 47  | 2.41 | 12.12.<br>2007 | 13.12.<br>2017 | 13.12.<br>2017 | 12.<br>12.<br>2027 | 12.12.<br>2007 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 19.<br>09.<br>2016 | N 21°52'04.34"<br>E 76°11'08.04"<br>N 21°52'04.50"  | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

34

|   |                  |   |        |                                  |         |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|---|------------------|---|--------|----------------------------------|---------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|   |                  | खण्डवा<br>9827006648  |        |                                  |         |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E 76°11'10.29"<br>N21°52'13.21"<br>E76°11'06.62"<br>N21°52'11.66"<br>N76°11'04.04"   |           |
| 6 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अशोक पिता श्री<br>देवराम एतालकर<br>निवासी एम.आई.जी.<br>398 समनगर खण्डवा<br>जिला खण्डवा<br>9340184438   | रुंधी  | 14278-<br>79/<br>18.11.<br>2015  | 56      | 4.00 | 26.11.<br>2015 | 25.11.<br>2025 | निरंक | निरंक | 26.11.<br>2015 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 28<br>10.<br>2015  | N21°50'45.92"<br>E76°26'39.03"<br>N21°50'45.72"<br>E76°26'44.49"<br>N21°50'37.58"<br>E76°26'43.82"<br>N21°50'36.73"<br>E76°26'40.01" | सतह<br>पर |
| 7 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक कृष्णा<br>स्टोन-क्रेशर पार्टनर<br>श्री भारत मेघवानी<br>पिता श्री चन्द्रभान<br>मेघवानी निवासी 341<br>विद्या नगर खण्डवा<br>एवं रोहित परचानी<br>पिता श्री राजेश<br>परचानी निवासी सिंधी | ढोरानी | 18039-<br>40 /<br>16.09.<br>2014 | 59 / 02 | 1.00 | 17.09.<br>2015 | 16.09.<br>2025 | निरंक | निरंक | 17.09.<br>2015 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 26.<br>09.<br>2015 | N21°58'46.78"<br>E76°24'05.50"<br>N21°58'47.21"<br>E76°24'13.40"<br>N21°58'54.76"  | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक सचिव अधिकारी  
कारण कलेक्टर  
जिला पंच विभाग खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

35

|   |                  |   |       |                              |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |
|---|------------------|---|-------|------------------------------|--|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
|   |                  | कालोनी खण्डवा<br>9755868888   |       |                              |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°24'13.00"<br>N21°58'54.69"<br>E76°24'04.78"   |           |
| 8 | पत्थर/<br>मुरुम  | पुरनी ईन्फ्रा इंडो फा0<br>लि0 पुरनी हाउस<br>पडावा रोड खण्डवा<br>प्रो. उत्तपालसिंह<br>9425085099           | मथेला | 3037-3<br>8 / 23.<br>02.2018 | 29 / 1,<br>29 / 2,<br>6                      | 5.74 | 06.04.<br>2018 | 05.04.<br>2028 | निरंक | निरंक | 06.04.<br>2018 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 11.<br>01.<br>2018 | N21°54'15.3"<br>E76°22'39.9"<br>N21°54'17.9"<br>E76°22'48.6"<br>N21°54'11..7"<br>E76°22'49.6"<br>N21°54'11.2"<br>E76°22'45.6"<br>N21°54'07.4"<br>E76°22'45.7"<br>N21°54'07.1"<br>E76°22'41.3" | सतह<br>पर |
| 9 | पत्थर/<br>गिट्टी | मेसर्स नर्मदा रिसोर्स<br>पार्टनर श्री<br>हरितपालसिंह होरा<br>निवासी 191-ट्रासपोर्ट<br>नगर, मेन रोड इन्दौर | बामझर | 4738-3<br>9 / 27.<br>03.2017 | 1 / 1,<br>1 / 2,1<br>/ 3,<br>2 / 1,3<br>/ 1. | 4.00 | 27.05.<br>2017 | 26.05.<br>2027 | निरंक | निरंक | 27.05.<br>2017 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 03.<br>03.<br>2017 | N21°59'49.54"<br>E76°13'2.10"<br>N21°59'51.06"  | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

|    |                  |  |                |                               |  |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |               |  |
|----|------------------|--|----------------|-------------------------------|--|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|---------------|--|
|    |                  | जिला इन्दोर  |                |                               | 3/2,<br>3/3                                    |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  | E76°13'16.12" |  |
|    |                  | 9893000099   |                |                               |  |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  | N21°59'57.86" |  |
|    |                  |  |                |                               |  |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  | E76°13'14.40" |  |
| 10 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अनिल बौरासी<br>पिता श्रीराम बौरासी<br>निवासी मकान नंबर<br>02 गणेश कालोनी<br>भण्डारिया रोड<br>खण्डवा<br><br>9907006604 | पिपल्याकल<br>I | 818-<br>19/<br>10.01.<br>2018 | 178/1<br><br>178/2.<br><br>179,<br>182,<br>177 | 5.630 | 17.01.<br>2018 | 16.01.<br>2028 | निरंक | निरंक | 17.01.<br>2018 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 11.<br>01.<br>2018 | N21°43'38.3"<br>E76°32'04.6"<br>N21°43'46.6"<br>E76°32'07.9"<br>N21°43'52.2"<br>E76°32'00.8"<br>N21°43'44.9"<br>E76°31'59.2"<br>N21°43'42.0"<br>E76°31'55.5" | सतह<br>पर     |  |
| 11 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री अमन<br>कनोजिया पिता श्री<br>अशोक कनोजिया<br>वार्ड नंबर 02 मस्जिद<br>के पास गणेश तलाई<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा   | सिगोट          | 16182-<br>83/14.<br>01.2018   | 1213   | 4.10  | 19.12.<br>2018 | 18.12.<br>2028 | निरंक | निरंक | 19.12.<br>2018 | शिथिल        | विक्रय<br>हेतु | 26.<br>07.<br>2018 | N 21°42'32.44"<br>E 76°29'31.10"<br>N 21°42'32.44"<br>E 76°29'33.26"<br>N 21°42'34.85"   | सतह<br>पर     |  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारस्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

37

|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  |                 |           |
|----|------------------|--|--------|-----------------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------|
|    |                  | 7974809995   |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°29'34.23"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°42'28.69"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°29'38.55"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°42'20.85"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°29'40.90"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°42'20.97"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°29'38.07"  |           |
| 12 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री आशीष यादव<br>पिता स्व. श्री<br>हुकुमचंद यादव<br>निवासी लक्कड<br>बाजार (मंगल भवन)<br>खण्डवा तहसील एवं<br>जिला खण्डवा<br><br>9425086666 | सिंगोट | 14209-<br>10/06.<br>10.2010 | 856<br>857<br>861 | 1.440 | 29.11.<br>2017 | 28.11.<br>2027 | निरंक | निरंक | 29.11.<br>2017 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>09.<br>2017 |  |  |  | N 21°43'38.00"  | सतह<br>पर |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°30'22.77." |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°43'39.00"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°30'22.77." |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°43'37.61"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°30'22.16." |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°43'37.10"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°30'21.91." |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°43'31.13"  |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | E 76°30'20.62." |           |
|    |                  |  |        |                             |                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |  | N 21°43'35.40"  |           |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिवक्ता  
वारंसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाइ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  |                 |  |
|----|------------------|---|---------|-----------------------------|-----|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|--|-----------------|--|
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'21.98." |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | N 21°43'36.95"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'16.98." |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | N 21°43'29.42"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'21.50." |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | N 21°43'25.97"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'20.86." |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | N 21°43'25.93"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'19.81"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | N 21°43'29.33"  |  |
|    |                  |   |         |                             |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |  | E 76°30'19.71"  |  |
| 13 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अशुल कोठारी<br>पिता श्री सुभाष<br>कोठारी निवासी<br>शास्त्री तहसील एवं<br>जिला खण्डवा<br><br>9826731845 | ढोढवाडा | 6447-4<br>8/ 01.<br>05.2017 | 820 | 1.950 | 01.06.<br>2017 | 30.06.<br>2027 | निरंक | निरंक | 01.06.<br>2017 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>04.<br>2017 | N21°54'11.81"<br>E76°23'27.58"<br>N21°54'08.90"<br>E76°23'28.70"<br>N21°54'12.32"<br>E76°23'18.08"<br>N21°54'13.73" | सतह<br>पर |  |                 |  |

State Level Environmental Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला एवं निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

39

|    |                  |  |          |                                   |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|----------|-----------------------------------|-----|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |          |                                   |     |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E 76°23'19.13"   |           |
| 14 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अंशुल कोठारी<br>पिता श्री सुभाष<br>कोठारी निवासी<br>शास्त्री तहसील एवं<br>जिला खण्डवा<br><br>9826731845     | ढोढवाड़ा | 315-<br>16/<br><br>12.12.<br>2021 | 820 | 2.070 | 03.08.<br>2021 | 02.08.<br>2031 | निरंक | निरंक | 03.08.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 22.<br>10.<br>2020 | N 21°54'07.8"<br>E 76°23'35.5"<br>N 21°54'08.3"<br>E 76°23'31.8"<br>N 21°54'09.6"<br>E 76°23'27.7"<br>N 21°54'11.5"<br>E 76°23'28.8"<br>N 21°54'11.3"<br>E 76°23'31.8"<br>N 21°54'12.6"<br>E 76°23'32.8" | सतह<br>पर |
| 15 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री दादा जी स्टोन<br>क्रेशर प्रो. प्रीतम घटेल<br>एवं संदीप पटेल<br>एच-1 दीनदयालपुरम<br>खण्डवा<br><br>9826344111 | भैसावा   | 7339-4<br>0/ 14.<br>05.2018       | 185 | 1.25  | 25.06.<br>2018 | 24.06.<br>2027 | निरंक | निरंक | 25.06.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>09.<br>2017 | N 22°00'06.24"<br>E 76°31'11.63"<br>N 22°00'10.35"<br>E 76°31'11.65"   | सतह<br>पर |

State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिल्हा पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

50

|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 |                |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|----|------------------|--|--------|-----------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | N 22°00'10.68" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | E 76°31'13.86" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | N 22°00'10.21" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | E 76°31'14.68" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | N 22°00'07.14" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
|    |                  |  |        |                             |      |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |               |           |                 | E 76°31'15.40" |                 |                |                 |               |                 |                |                 |
| 16 | पत्थर/<br>गिट्टी | मेसर्स बालाजी क्रेशर<br>एण्ड डव्हलपर्स<br>खण्डवा<br><br>9826809066 | सिहाडा | 14734-<br>35/06.<br>12.2010 | 43/1 | 0.90 | 22.12.<br>2010 | 21.12.<br>2020 | 21.12.<br>2020 | 20.<br>12.<br>2030 | 22.12.<br>2010 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 19.<br>06.<br>2020 | N 21°54'9.84" | सतह<br>पर | E 76°23'.54.31" | N 21°54'6.57"  | E 76°23'.53.75" | N 21°54'06.28" | E 76°23'.50.66" | N 21°54'9.13" | E 76°23'.50.80" | N 21°54'10.09" | E 76°23'.52.58" |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

51

|    |                  |  |         |                             |    |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |
|----|------------------|--|---------|-----------------------------|----|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
| 17 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री सोहेल जैदी<br>निवासी 36 गली नंबर<br>01 हातमपुरा चौक<br>खण्डवा जिला<br>-खण्डवा<br><br>9424525092 | सिहाड़ा | 12469-<br>70/03.<br>08.2018 | 37 | 1.740 | 04.09.<br>2018 | 03.09.<br>2028 | निरंक | निरंक | 04.09.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 02.<br>08.<br>2019 | N 21°54'12.9"<br>E 76°23'.58.9"<br>N 21°54'13.0"<br>E 76°24'.05.7"<br>N 21°54'09.7"<br>E 76°24'.05.2"<br>N 21°54'10.3"<br>E 76°24'.01.3"<br>N 21°54'10.4"<br>E 76°23'.58.7" | सतह<br>पर |
| 18 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री तुलसीदास पटेल<br>निवासी ग्राम<br>गुड़ीखेड़ा तहसील एवं<br>जिला खण्डवा<br><br>6268617551          | बामन्दा | 12471-<br>72/03.<br>08.2018 | 92 | 3.970 | 14.08.<br>2018 | 13.08.<br>2028 | निरंक | निरंक | 14.08.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 16.<br>03.<br>2020 | N21°35'53.3"<br>E76°37'23.2"<br>N21°35'53.5"<br>E76°37'28.6"<br>N21°35'55.4"<br>E76°37'29.6"<br>N21°35'56.5"<br>E76°37'27.5"  | सतह<br>पर |

State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Area Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

42

|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |
|----|------------------|--|---------|--------------------------|--|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'51.1"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°37'38.9"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'50.9"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°37'33.7"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'53.5"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°37'34.0"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'53.3"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°37'23.2"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'53.2"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E26°37'29.2"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°35'50.9"  |           |
|    |                  |  |         |                          |  |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°37'33.7"  |           |
| 19 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री<br>नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br>9425326123 | रेवाड़ा | 12594-<br>04.08.<br>2018 | 504,<br>505,<br>506/1,<br>506/2<br>525 | 4.80 | 21.08.<br>2018 | 20.08.<br>2028 | निरंक | निरंक | 21.08.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 26.<br>07.<br>2018 | N21°59'49.3"<br>E76°13'01.3"<br>N21°59'56.03"<br>E76°13'11.2"<br>N21°59'47.0"<br>E76°13'08.2" | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निहाड़ खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

43

|    |                  |  |                      |                             |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |                      |                             |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°59'58.2"   |           |
|    |                  |  |                      |                             |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°13'08.5"   |           |
| 20 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री<br>नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br><br>9425326123 | वीरपुरकुण्डे<br>श्वर | 10935-<br>36/11.<br>07.2018 | 96  | 4.80  | 24.07.<br>2018 | 23.07.<br>2028 | निरंक | निरंक | 24.07.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 07.<br>04.<br>2018 | N21°49'17"<br>E76°24'56.9"<br>N21°49'17.5"<br>E76°25'3.6"  | सतह<br>पर |
| 21 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री<br>नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br><br>9425326123 | वीरपुरकुण्डे<br>श्वर | 10933-<br>34/11.<br>07.2018 | 57/2<br>/1.<br>57/2<br>/2.<br>57/3,<br>84 | 4.190 | 24.07.<br>2018 | 23.07.<br>2028 | निरंक | निरंक | 24.07.<br>2018 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 07.<br>04.<br>2018 | N21°49'11.1"<br>E76°24'58.5"<br>N21°49'10.3"<br>E76°24'49.1"<br>N21°49'14.3"<br>E76°24'48.3"<br>N21°49'15.6"<br>E76°24'57.2" | सतह<br>पर |

State Level  
Assessment  
(E. 5)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

44

|    |                  |   |          |                              |     |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |   |           |
|----|------------------|---|----------|------------------------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
| 22 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री कैलाश सिंह<br>राठौर निवासी<br>खण्डवा<br><br>9425085083 | खिड़गांव | 1666-6<br>7 / 03<br>03 2021  | 695 | 1.72 | 11.01.<br>2011 | 12.01.<br>2021 | 12.01.<br>2021 | 11.<br>01.<br>2031 | 12.01.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 30.<br>05.<br>2016 | N 21°42'46.9"<br>E 76°26'.42.4"<br>N 21°42'48.0"<br>E 76°26'.43.5"<br>N 21°42'48.0"<br>E 76°26'.45.5"<br>N 21°42'41.4"<br>E 76°26'.44.8"<br>N 21°42'41.4"<br>E 76°26'.40.5" | सतह<br>पर |
| 23 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री कैलाश सिंह<br>राठौर निवासी<br>खण्डवा<br><br>9425085083 | खिड़गांव | 142-14<br>3 / 13.<br>05.2021 | 748 | 4.00 | 11.01.<br>2011 | 12.01.<br>2021 | 12.01.<br>2021 | 11.<br>01.<br>2031 | 12.01.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 30.<br>05.<br>2016 | N21°44'39.57"<br>E76°25'26.06"<br>N21°44'39.34"<br>E76°25'31.12"<br>N21°44'44.90"<br>E76°25'30.98"<br>N21°44'44.19"   | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

45

|    |                  |   |           |                                      |   |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|---|-----------|--------------------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |   |           |                                      |   |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    | E76°25'2882"   |           |
| 24 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदिका श्रीमति<br>साधना दिक्षित पति<br>श्री शांतानु दिक्षित<br>निवासी 08 आनंद<br>नगर खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br><br>9425085091                           | सिहाड़ा   | 146-47<br><br>/ 13.05.<br>2021       | 350   | 1.00 | 23.01.<br>2011 | 24.12.<br>2020 | 24.12.<br>2020 | 23.<br>12.<br>2030 | 24.12.<br>2020 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 03.<br>07.<br>2015 | N21°54'0.7"<br><br>E76°23'57.8"<br><br>N21°53'57.7"<br><br>E76°24'1.2"<br><br>N21°53'57.7"<br><br>E76°24'1.2"  | सतह<br>पर |
| 25 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री दादा जी<br>स्टोन-क्रेशर प्रो. श्री<br>रोहित परचानी एवं<br>अन्य मकान नंबर 91<br>गली नंबर 03 सिंधी<br>कालोनी खण्डवा<br>जिला खण्डवा<br><br>9755868888 | टाकलीमोरी | 19461<br><br>/ 11.12<br>2019         | 353 / 1,<br>353 / 2,<br>354 / 1,<br>354 / 2 | 2.49 | 14.01.<br>2020 | 13.01.<br>2030 | निरंक          | निरंक              | 14.01.<br>2020 | शिथिल        | विक्रय<br>हेतु | 06.<br>11.<br>2019 | N 21°47'18.64"<br><br>E 76°15'.47.11"<br><br>N 21°47'18.91"<br><br>E 76°15'.51.55"<br><br>N 21°47'13.77"<br><br>E 76°15'.52.19"<br><br>N 21°47'13.19"<br><br>E 76°15'.47.34" | सतह<br>पर |
| 26 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री मुकेश पिता श्री<br>प्रेमनारायण कंसल<br>निवासी 27 शिवाजी<br>मार्ग बडवाह जिला  | मोरघाडी   | 142019<br><br>-20/0<br>6.10.<br>2017 | 634 / 2<br><br>651                          | 3.00 | 06.11.<br>2017 | 05.11.<br>2027 | निरंक          | निरंक              | 06.11.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>09.<br>2017 | N22°12'36.5"<br><br>E76°03'55.0"   | सतह<br>पर |

State Level Environmental Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक ज्यूनियर अधिकारी  
धारते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

46

|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |   |           |
|----|-----------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
|    |                 | खरगोन  |                   |                              | 652                               |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'33.6"  |           |
|    |                 | 9826622361   |                   |                              | 653 / 2                           |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°03'55.8"  |           |
|    |                 |  |                   |                              | 654 / 2                           |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'35.8"  |           |
|    |                 |  |                   |                              | 655                               |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°04'06.1"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'40.1"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°04'04.1"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'38.9"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°04'01.8"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'44.7"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°04'2.0"   |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'44.7"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°04'0.2"   |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°12'36.8"  |           |
|    |                 |  |                   |                              |                                   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°03'58.9"  |           |
| 27 | पत्थर/<br>मुरुम | श्री राजेन्द्र कुमार<br>चंद्रवंशी पिता श्री<br>मिठ्ठुलाल चन्द्रवंशी<br>निवासी ग्राम एवं<br>तहसील पुनासा जिला<br>खण्डवा | नांदखेड़ा<br>रैयत | 1467-6<br>8 / 06.<br>10.2017 | 165<br>166 / 2<br>166 / 4,<br>168 | 3.540 | 13.11.<br>2017 | 12.11.<br>2027 | निरंक | निरंक | 13.11.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 07.<br>01.<br>2020 | N22°12'16.6"<br>E76°22'33.7"<br>N22°12'12.12"<br>E76°22'32" | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

47

|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  |                |           |
|----|------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|--|----------------|-----------|
|    |                  | 9977819009  |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N22°12'5.8"    |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E76°22'39.3"   |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N22°12'11.14"  |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E76°22'36.0"   |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N22°12'19.6"   |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E76°22'41.0"   |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N22°12'18.2"   |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E76°22'45.5"   |           |
| 28 | पत्थर/<br>गिट्टी | पुरनी इन्फ्रा इ0 फा0<br>लि0 प्रो. उत्तपालसिंह<br>एवं मेसर्स गिरीधर<br>पुरनी हाउस खण्डवा<br><br>9425085099 | डाबरी<br>रैय्यत | 15567<br>/03.11.<br>2016 | 73 / 2,<br>75 / 8<br>एवं 74 | 1.90 | 14.12.<br>2017 | 13.02.<br>2027 | निरंक | निरंक | 14.12.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 19.<br>09.<br>2016 |  |  | N 21°06'54.79" | सतह<br>पर |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E 76°34'19.36" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N 22°06'52.58" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E 76°34'19.40" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N 22°06'52.58" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E 76°34'21.10" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N 22°06'52.14" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E 76°34'23.45" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | N 22°06'54.77" |           |
|    |                  |   |                 |                          |                             |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |  | E 76°34'23.46" |           |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक स्वामि अधिकारी  
गाम्भी कलकत्ते  
जिला पूर्व विभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  |                |           |
|----|------------------|--|-----------|----------------------------|-----|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---------------|--|--|----------------|-----------|
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | N 22°06'50.97" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | E 76°34'23.47" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | N 22°06'44.63" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | E 76°34'23.74" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | N 22°06'44.85" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | E 76°34'25.19" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | N 22°06'51.18" |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |               |  |  | E 76°34'24.88" |           |
| 29 | पत्थर/<br>गिट्टी | पुरनी इन्फ्रा ई0 प्प0<br>लि0 प्रो. उत्तपालसिंह<br>एवं मेसर्स गिरीधर<br>पुरनी हाउस खण्डवा<br><br>9425085099 | भगवानपुरा | 7747-4<br>8/27.<br>05.2017 | 4/3 | 4.00 | 18.02.<br>2016 | 17.02.<br>2026 | निरंक | निरंक | 18.02.<br>2016 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>09.<br>2017 | N22°06'31.16" |  |  | E76°34'18.97"  | सतह<br>पर |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°06'30.73" |  |  | E76°34'12.79"  |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°06'35.68" |  |  | E76°34'12.30"  |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°06'35.64" |  |  | E76°34'10.28"  |           |
|    |                  |  |           |                            |     |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N22°06'37.74" |  |  | E76°34'10.19"  |           |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

49

|    |                 |   |        |                             |   |      |                |                |                |                    |                |                |                    |  |  |               |  |
|----|-----------------|---|--------|-----------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|--|---------------|--|
|    |                 |   |        |                             |   |      |                |                |                |                    |                |                |                    |  |  | N22°06'37.90" |  |
|    |                 |   |        |                             |   |      |                |                |                |                    |                |                |                    |  |  | E76°34'17.40" |  |
|    |                 |   |        |                             |   |      |                |                |                |                    |                |                |                    |  |  | N22°06'35.44" |  |
|    |                 |   |        |                             |   |      |                |                |                |                    |                |                |                    |  |  | E76°34'18.69" |  |
| 30 | पत्थर/<br>मुरुम | श्री निलेश कुमार<br>पटेल पिता श्री<br>अरविन्द कुमार पटेल<br>निवासी नर्मदा<br>हास्पिटल के पास<br>सनावद तहसील<br>बड़वाह जिला<br>खरगौन<br><br>9479598725 | मोरघडी | 14975-<br>76/21.<br>10.2015 | 340/1,<br>340/2,<br>351/1,<br>338,<br>335,<br>320,<br>339,<br>337 | 3.00 | 08.11.<br>2016 | 07.11.<br>2026 | निरंक<br>निरंक | 08.11.<br>2016     | कार्य<br>शील   | विक्रय<br>हेतु | 19.<br>09.<br>2016 | N22°11'57.3"<br>E76°02'56.6"<br>N22°11'56.2"<br>E76°02'56.5"<br>N22°11'59.1"<br>E76°03'04.4"<br>N22°11'57.3"<br>E76°03'04.8" | सतह<br>पर  |               |  |
| 31 | पत्थर/<br>मुरुम | श्री अतुल कुमार पिता<br>श्री पुरुषोत्तम दास<br>अजमेरा निवासी जैन<br>कालोनी 103 सनावद<br>जिला खरगौन<br>9424007622                                      | ईनपुन  | 5484-8<br>5/20.<br>05.2015  | 325   | 2.00 | 28.07.<br>2004 | 29.07.<br>2014 | 28.07.<br>2014 | 29.<br>07.<br>2024 | 28.07.<br>2014 | कार्य<br>शील   | विक्रय<br>हेतु     | 09.<br>07.<br>2018   | N22°11'49.1"<br>E76°05'28.5"<br>N22°11'45.7"<br>E76°05'26.9"<br>N22°11'45.7"<br>E76°05'33.2" | सतह<br>पर     |  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहाराक खनिज अधिकार  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निवाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

50

|    |                  |  |           |                                 |                |      |                |                      |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|-----------|---------------------------------|----------------|------|----------------|----------------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |           |                                 |                |      |                |                      |       |       |                |              |                |                    | N22°11'44.6"   |           |
|    |                  |  |           |                                 |                |      |                |                      |       |       |                |              |                |                    | E76°05'34.4"   |           |
| 32 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री विशाल पिता श्री<br>गिरधारी लाल सोनी<br>निवासी 546 भवानी<br>रोड सनावद जिला<br>खरगौन<br><br>7987688860                                  | मोरघड़ी   | 18238-<br>39/<br>03.10.<br>2013 | 358<br><br>378 | 2.20 | 31.01.<br>2014 | 30.01.<br>2024<br>तक | निरंक | निरंक | 31.01.<br>2014 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 06.<br>04.<br>2015 | N22°11'50.37"<br>E76°03'30.43"<br>N22°11'55.86"<br>E76°03'31.11"<br>N22°11'56.50"<br>E76°03'44.72"<br>N22°11'48.58"<br>E76°03'47.64  | सतह<br>पर |
| 33 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री धमेन्द्र पिता श्री<br>यशवन्तसिंह सोलकी<br>निवासी 09 खण्डवा<br>रोड बालाजी<br>आटोपाटर्स के पास<br>सनावद जिला<br>खरगौन<br><br>8120108270 | हरवंशपुरा | 18235-<br>36/<br>03.10.<br>2010 | 41/1           | 1.70 | 03.07.<br>2015 | 02.07.<br>2025       | निरंक | निरंक | 03.07.<br>2015 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 07.<br>04.<br>2015 | N23°08'35.05"<br>E76°14'48.72"<br>N23°08'25.20"<br>E76°14'48.72"<br>N23°08'37.06"<br>E76°14'54.31"<br>N23°08'29.43"<br>E76°14'54.31" | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

51

|    |                  |  |                    |                            |     |       |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|--------------------|----------------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
| 34 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री दिग्विजय सिंह<br>तोमर पिता श्री<br>रुद्राशरण सिंह तोमर<br>निवासी ग्राम<br>गुजरखेड़ी तहसील<br>पुनासा जिला खण्डवा<br><br>7828840646 | नादखेड़ा<br>रैय्यत | 283-<br>84/22.<br>06.2021  | 187 | 1.890 | 06.02.<br>2010 | 05.02.<br>2020 | 24.08.<br>2021 | 23.<br>08.<br>2031 | 06.02.<br>2010 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 19.<br>02.<br>2021 | N22°12'12.11"<br>E76°23'04.78"<br>N22°12'11.96"<br>E76°23'10.94"<br>N22°12'08.56"<br>E76°23'11.17"<br>N22°12'08.39"<br>E76°23'04.98" |           |
| 35 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अनुराग पिता<br>कचरुमल बसंत<br>निवासी रामकृष्ण गंज<br>खण्डवा<br><br>9827006648   | रामपुरी            | 4670-7<br>1/02.<br>05.2015 | 76  | 3.350 | 21.02.<br>2004 | 22.02.<br>2014 | 22.02.<br>2014 | 21.<br>02.<br>2024 | 22.02.<br>2014 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 24.<br>04.<br>2015 | N 21°59'07.8"<br>E 76°45'53.05"<br>N 21°59'04.04"<br>E 76°45'55.08"<br>N 21°58'59.05"<br>E 76°45'47.03"                              | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खानिजा अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

52

|    |                  |  |            |                                 |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|------------|---------------------------------|---|-------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |            |                                 |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | N 21°59'02.05"   |           |
|    |                  |  |            |                                 |   |       |                |                |       |       |                |              |                |                    | E 76°45'45.0"  |           |
| 36 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री आशु<br>जैन पिता श्री राजीव<br>जैन निवासी म.न. 80,<br>वार्ड नंबर 05 नरसिंह<br>वार्ड हरदा तहसील<br>हरदा जिला हरदा<br><br>9977033111 | मंजाघड     | 2171-7<br>2/02.<br>02.2021      | 75 / 1.<br>75 / 2.<br>75 / 3.<br>75 / 4 | 3.380 | 13.05.<br>2021 | 12.05.<br>2031 | निरंक | निरंक | 13.05.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>03.<br>2021 | N 21°57'12.16"<br>E 76°44'04.05"<br>N 21°57'19.78"<br>E 76°44'01.94"<br>N 21°57'18.53"<br>E 76°43'57.16"<br>N 21°57'11.23"<br>E 76°43'59.19" | सतह<br>पर |
| 37 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री सुरेश पिता श्री<br>मनीराम जाट निवासी<br>अबगॉवकला तहसील<br>हडिंया जिला हरदा<br><br>7879176297  | गम्भीर सर. | 15160-<br>61/<br>08.12.<br>2015 | 453<br>398/3,<br>398/1                  | 3.50  | 10.12.<br>2015 | 09.12.<br>2025 | निरंक | निरंक | 10.12.<br>2015 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 29.<br>12.<br>2015 | N22°17'10.00"<br>E76°80'67.00"<br>N22°16'90.78"<br>E76°80'67.31"<br>N22°16'86.20"<br>E76°80'34.90"<br>N22°17'05.69"<br>E76°80'49.46          | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

53

|    |                  |   |          |                                 |       |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|---|----------|---------------------------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
| 38 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री जयनारायण यादव<br>पिता श्री तेजराम<br>यादव निवासी<br>सैदाबाद तहसील<br>खालवा जिला<br>खण्डवा<br><br>9479576076  | जुनापानी | 3758-5<br>9/ 28.<br>02 2018     | 351/1 | 8.65 | 28.06.<br>2018 | 25.06.<br>2028 | निरंक          | निरंक              | 28.06.<br>2018 | शिथिल        | विक्रय<br>हेतु | 11.<br>01.<br>2018 | N21°47'34.2"<br>E76°41'36.4"<br>N21°47'39.4"<br>E76°41'60.1"<br>N21°47'39.4"<br>E76°41'00.7"<br>N21°47'57.4"<br>E76°41'70.7" | सतह<br>पर |
| 39 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री राजेन्द्र सिंह<br>किलेदार कन्स्ट्रक्शन<br>प्रायवेट लिमिटेड प्रो.<br>राघवेन्द्र सिंह<br>किलेदार निवासी<br>तिलक नगर रोड़<br>सदर बैतुल (म.प्र.)<br><br>9479711111 | ढकोची    | 6488-8<br>9/02.<br>05 2017      | 403/1 | 1.35 | 18.05.<br>2017 | 17.05.<br>2027 | निरंक          | निरंक              | 18.05.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>04.<br>2017 | N21°46'42.7"<br>E76°48'20.4"<br>N21°46'49.0"<br>E76°48'23.4  | सतह<br>पर |
| 40 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री अशोक कुमार<br>पिता श्री घासीलाल<br>वर्मा निवासी ग्राम<br>खेड़ी तहसील खालवा<br>जिला खण्डवा<br><br>9406637001  | जूनापानी | 10031-<br>32/<br>25.08.<br>2015 | 351/1 | 2.00 | 22.09.<br>2005 | 31.09.<br>2015 | 23.09.<br>2015 | 22.<br>09.<br>2025 | 23.09.<br>2015 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>05.<br>2015 | N 21°47'31.40"<br>E 76°41'59.50"<br>N 21°47'26.00"<br>E 76°42'01.00"   | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकार  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)







## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

55

|    |                  |  |                  |                             |                       |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |                  |                             |                       |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E 76°41'51.26"<br>N 21°47'28.94"   |           |
|    |                  |  |                  |                             |                       |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E 76°41'47.16"   |           |
| 42 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री आनंद कुमार<br>गुप्ता लवकुश नगर<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br><br>9826464264   | लंगोटी           | 6538-3<br>9/02.<br>05 2017  | 30/23<br>1            | 1.90 | 18.05.<br>2017 | 17.05.<br>2027 | निरंक | निरंक | 18.05.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 25.<br>04.<br>2017 | N21°53'19.3"<br><br>E76°50'01.3"<br><br>N21°53'25.1"<br><br>E76°50'06.3"   | सतह<br>पर |
| 43 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री ऋषिकेश<br>शर्मा पिता श्री<br>रामजीलाल शर्मा<br>निवासी कसेरा<br>मोहल्ला गोलापुरा,<br>हरदा तहसील एवं<br>जिला हरदा<br><br>9425419210 | लखनपुर<br>रैय्यत | 14835-<br>36/27.<br>08.2010 | 105/1,<br>105/2       | 2.07 | 08.03.<br>2021 | 07.03.<br>2031 | निरंक | निरंक | 08.03.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 27.<br>01.<br>2021 | N22°0'18.74"<br><br>E76°57'22.3"<br><br>N22°0'17.59"<br><br>E76°57'25.76"<br><br>N76°57'22.57"<br><br>E76°02'56.5"<br><br>N22°0'17.22"<br><br>E76°57'24.18 | सतह<br>पर |
| 44 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री राधेश्याम<br>अखण्डे पिता श्री<br>श्यामलाल अखण्डे<br>निवासी खमलाय<br>तहसील खालवा   | डाविया           | 121-12<br>2/06.<br>05 2021  | 308/1<br>/3<br>.338/3 | 1.51 | 23.01.<br>2021 | 22-01<br>-2031 | निरंक | निरंक | 23.01.<br>2021 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 22.<br>10.<br>2020 | N21°46'41.7"<br><br>E76°48'15.6"   | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

56

|    |                  |   |                    |                              |             |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    |   |           |
|----|------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------|
|    |                  | जिला खण्डवा<br>9926510723   |                    |                              |             |      |                |                |                |                    |                |              |                |                    | N21°46'49.5"<br>E76°48'19.2   |           |
| 45 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री मुलचंद प्रजापति<br>पिता श्री चुन्नीलाल<br>प्रजापति निवसी<br>खालवा जिला<br>खण्डवा<br>7354165454 | ढकोची              | 5450-5<br>1 / 11.<br>04.2017 | 40<br>3 / 2 | 1.45 | 26.04.<br>2017 | 25.04.<br>2027 | निरंक          | निरंक              | 26.04.<br>2017 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 03.<br>03.<br>2017 | N21°41'00.03"<br>E76°12'37.95"<br>N21°40'59.60"<br>E76°12'37.93"<br>N21°41'03.44'<br>E76°12'39.70 | सतह<br>पर |
| 46 | पत्थर/<br>मुरुम  | श्री भागचंद पिता श्री<br>माणिकचंद नेमनानी<br>निवासी पंधाना<br>खण्डवा<br>8770603742                  | पंधाना             | 6308-0<br>9 / 25.<br>05.2016 | 282 / 5     | 3.50 | 07.06.<br>2006 | 08.06.<br>2016 | 08.06.<br>2016 | 07.<br>06.<br>2026 | 08.06.<br>2016 | कार्य<br>शील | विक्रय<br>हेतु | 30.<br>06.<br>2015 | N21°41'00.03"<br>E76°12'37.95"<br>N21°40'59.60"<br>E76°12'37.93"<br>N21°41'03.44'<br>E76°12'39.70 | सतह<br>पर |
| 47 | पत्थर/<br>गिट्टी | श्री विवेक पिता श्री<br>सुदेश मेहता निवासी<br>एल.आई.सी. आफिस<br>के पीछे खण्डवा<br>7611188857        | बोरगांव<br>बुजुर्ग | 3775-7<br>6 / 21.<br>03.2016 | 1542 /<br>2 | 1.73 | 09.08.<br>2014 | 08.08.<br>2024 | निरंक          | निरंक              | 09.08.<br>2014 | शिथिल        | विक्रय<br>हेतु | 10.<br>08.<br>2015 | N21°34'59.04"<br>E76°18'41.5"<br>N21°34'54.3"<br>E76°18'40.6"                                     | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निहाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

57

|    |                  |  |          |                                 |                               |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|--|----------|---------------------------------|-------------------------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
|    |                  |  |          |                                 |                               |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°34'59.3"   |           |
|    |                  |  |          |                                 |                               |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°18'46.5"   |           |
|    |                  |  |          |                                 |                               |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | N21°34'54.8"   |           |
|    |                  |  |          |                                 |                               |      |                |                |       |       |                |              |                |                    | E76°18'46.2"   |           |
| 48 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री<br>नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला<br>खण्डवा<br>9827006648 | गोराडिया | 12592-<br>93/<br>14.03.<br>2018 | 55 / 2,<br>55 / 1,<br>56 / 2, | 2.15 | 21.08.<br>2018 | 20.08.<br>2028 | निरंक | निरंक | 21.08.<br>2018 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 26.<br>07.<br>2018 | N21°40'47.02"<br>E76°11'42.8"<br>N21°40'41.5"<br>E76°11'40.47"<br>N21°40'41.7"<br>E76°11'46.9"<br>N21°40'38.7"<br>E76°11'47.2"<br>N21°40'38.6"<br>E76°11'39.4"<br>N21°40'42.9"<br>E76°11'37.5" | सतह<br>पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

58

|    |                  |   |      |                            |                                 |      |                |                |       |       |                |              |                |                    |  |           |
|----|------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|
| 49 | पत्थर/<br>गिट्टी | आवेदक श्री राकेश<br>पटेल पिता श्री छीतर<br>पटेल निवासी मलगांव<br>तहसील एवं जिला<br>खण्डवा<br><br>9926021678 | आबुद | 121-22<br>/ 06.<br>05.2021 | 372 / 1,<br>372 / 2,<br>372 / 4 | 1.55 | 29.06.<br>2021 | 28.06.<br>2031 | निरंक | निरंक | 29.06.<br>2021 | कार्यशी<br>ल | विक्रय<br>हेतु | 18.<br>02.<br>2021 | N 21°47'10.12"<br>E 76°17'02.61"<br>N 21°47'10.89"<br>E 76°17'05.92"<br>N 21°47'07.25"<br>E 76°17'07.87"<br>N 21°47'06.58"<br>E 76°17'03.10" | सतह<br>पर |
|----|------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------|------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------|

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

59

### 9. DETAILS OF THE MINING LEASE OF THE DISTRICT

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला खण्डवा (म.प्र.)

| क्र मां क | पट्टाधारी का नाम व पता   | ग्राम             | तहसील  | खसरा क्रमांक     | रकबा हे. | खनिज           | अवधि                        | भूमि (शासकीय / निजी) | शिथिल / कार्यशील |
|-----------|--|-------------------|--------|------------------|----------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1         | श्री राकेश पिता श्री कचरुमल बसंल निवासी रामकृष्ण गंज खण्डवा जिला खण्डवा                      | देशगोवा           | खण्डवा | 1189, 1190, 1214 | 7.49     | पत्थर          | 20.06.2018 से 19.06.2028 तक | शासकीय भूमि          | शिथिल            |
| 2         | श्री राकेश बसंल निवासी रामकृष्ण गंज जिला खण्डवा  | केहलारी           | खण्डवा | 768 769 770      | 3.00     | पत्थर / गिट्टी | 01.03.2014 से 29.03.2024 तक | निजी भूमि            | कार्यशील         |
| 3         | श्री आशुतोष पिता श्री नंगीनचन्द बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाज मंडी के पिछे खण्डवा जिला खण्डवा | वीरपुरकुण्डे श्वर | खण्डवा | 56,104           | 14.150   | पत्थर / मुरुम  | 26.04.2016 से 25.04.2026 तक | शासकीय भूमि          | कार्यशील         |
| 4         | श्री छगन ऐतालकर पिता श्री देवराम ऐतालकर निवासी रामनगर खण्डवा जिला खण्डवा                     | नहाल्दा           | खण्डवा | 748              | 2.00     | पत्थर / गिट्टी | 30.05.2020 से 29.05.2030 तक | शासकीय भूमि          | कार्यशील         |

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

60

|    |  |            |        |  |       |                  |                                |             |          |
|----|--|------------|--------|--|-------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 5  | श्री राकेश बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाज मंडी के पीछे खण्डवा  | भोजाखेड़ी  | खण्डवा | 47                                       | 2.41  | पत्थर/<br>गिट्टी | 13.12.2017 से<br>12.12.2027 तक | शासकीय भूमि | कार्यशील |
| 6  | श्री अशोक पिता श्री देवराम एतालकर निवासी एम.आई.जी. 398 रामनगर खण्डवा जिला खण्डवा   | रुंधी      | खण्डवा | 56                                       | 4.00  | पत्थर/गिट्टी     | 26.11.2015 से<br>25.11.2025 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 7  | आवेदक कृष्णा स्टोन-क्रेशर पार्टनर श्री भारत मेघवानी पिता श्री चन्द्रभान मेघवानी निवासी 341 विद्या नगर खण्डवा एवं रोहित परचानी पिता श्री राजेश परचानी निवासी सिंधी कालोनी खण्डवा (म.प्र.) | ढोरानी     | खण्डवा | 59/02                                    | 1.00  | पत्थर/गिट्टी     | 17.09.2015 से<br>16.09.2025 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 8  | पुरनी ईन्फा इ0 फ्र0 लि0 पुरनी हाउस पडावा रोड खण्डवा प्रो. उत्तपालसिंह  | मथेला      | खण्डवा | 29/1, 29/2,<br>6                         | 5.74  | पत्थर/ मुरुम     | 06.04.2018 से<br>05.04.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 9  | मेसर्स नर्मदा रिसोर्स पार्टनर श्री हरितपालसिंह होरा निवासी 191-ट्रासपोर्ट नगर, मेन रोड इन्दोर जिला इन्दोर  | बामझर      | खण्डवा | 1/1,<br>1/2,1/3,<br>2/1,3/1,<br>3/2, 3/3 | 4.00  | पत्थर/<br>गिट्टी | 27.05.2017 से<br>26.05.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 10 | श्री अनिल बौरासी पिता श्रीराम बौरासी निवासी मकान नंबर 02   | पिपल्याकला | खण्डवा | 178/1                                    | 5.630 | पत्थर/<br>गिट्टी | 17.01.2018 से<br>16.01.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

61

|    |  |          |        |                           |       |                  |                                |             |          |
|----|--|----------|--------|---------------------------|-------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|
|    | गणेश कालोनी भण्डारिया रोड़<br>खण्डवा   |          |        | 178 / 2,<br>179, 182, 177 |       |                  |                                |             |          |
| 11 | आवेदक श्री अमन कनोजिया पिता<br>श्री अशोक कनोजिया वार्ड नंबर 02<br>मस्जिद के पास गणेश तलाई<br>खण्डवा जिला खण्डवा  | सिंगोट   | खण्डवा | 1213                      | 4.10  | पत्थर/<br>गिट्टी | 19.12.2018 से<br>18.12.2028 तक | शासकीय भूमि | शिथिल    |
| 12 | श्री आशीष यादव पिता स्व. श्री<br>हुकुमचंद यादव निवासी लक्कड़<br>बाजार (मंगल भवन) खण्डवा<br>तहसील एवं जिला खण्डवा | सिंगोट   | खण्डवा | 856<br>857<br>861         | 1.440 | पत्थर/<br>गिट्टी | 29.11.2017 से<br>28.11.2027 तक | शासकीय भूमि | कार्यशील |
| 13 | श्री अंशुल कोठारी पिता श्री सुभाष<br>कोठारी निवासी शास्त्री तहसील एवं<br>जिला खण्डवा                             | ढोढवाड़ा | खण्डवा | 820                       | 1.950 | पत्थर/<br>गिट्टी | 01.06.2017 से<br>30.06.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 14 | श्री अंशुल कोठारी पिता श्री सुभाष<br>कोठारी निवासी शास्त्री तहसील एवं<br>जिला खण्डवा                             | ढोढवाड़ा | खण्डवा | 820                       | 2.070 | पत्थर/<br>गिट्टी | 03.08.2021 से<br>02.08.2031 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 15 | श्री दादा जी स्टोन क्रेशर प्रो. प्रीतम<br>पटेल एवं संदीप पटेल एच-1<br>दीनदयालपुरम खण्डवा                         | भैसावा   | खण्डवा | 185                       | 1.25  | पत्थर/<br>मुरुम  | 25.06.2018 से<br>24.06.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंटे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

62

|    |   |                      |        |                                  |       |                  |                                |             |          |
|----|---|----------------------|--------|----------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 16 | मेसर्स बालाजी क्रेशर एण्ड डब्लुपर्स<br>खण्डवा   | सिहाडा               | खण्डवा | 43/1                             | 0.90  | पत्थर/<br>गिट्टी | 21.12.2020 से<br>20.12.2030    | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 17 | श्री सोहेल जैदी निवासी 36 गली<br>नंबर 01 हातमपुरा चौक खण्डवा<br>जिला -खण्डवा                                    | सिहाडा               | खण्डवा | 37                               | 1.740 | पत्थर/<br>गिट्टी | 04.09.2018 से<br>03.09.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 18 | श्री तुलसीदास पटेल निवासी ग्राम<br>गुड़ीखेड़ा तहसील एवं जिला खण्डवा   | बामन्दा              | खण्डवा | 92                               | 3.970 | पत्थर/<br>गिट्टी | 14.08.2018 से<br>13.08.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 19 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल निवासी<br>रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला खण्डवा | रेवाड़ा              | खण्डवा | 504, 505,<br>506/1,<br>506/2 525 | 4.80  | पत्थर/<br>गिट्टी | 21.08.2018 से<br>20.08.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 20 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल निवासी<br>रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला खण्डवा | वीरपुरकुण्डे<br>श्वर | खण्डवा | 96                               | 4.80  | पत्थर/<br>गिट्टी | 24.07.2018 से<br>23.07.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 21 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता<br>श्री कचरुमल बंसल निवासी<br>रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे<br>खण्डवा जिला खण्डवा | वीरपुरकुण्डे<br>श्वर | खण्डवा | 57/2/1,<br>57/2/2,<br>57/3, 84   | 4.190 | पत्थर/<br>गिट्टी | 24.07.2018 से<br>23.07.2028 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 22 | श्री कैलाश सिंह राठौर निवासी  | खिड़गांव             | खण्डवा | 695                              | 1.72  | पत्थर/<br>गिट्टी | 12.01.2021 से                  | शासकीय भूमि | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)







## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

63

|    |   |           |        |  |      |                  |                                |             |          |
|----|---|-----------|--------|--|------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|
|    | खण्डवा  |           |        |  |      | गिट्टी           | 11.01.2031 तक                  |             |          |
| 23 | श्री कैलाश सिंह राठौर निवासी खण्डवा   | खिडगांव   | खण्डवा | 748  | 4.00 | पत्थर/<br>गिट्टी | 12.01.2021 से<br>11.01.2031 तक | शासकीय भूमि | कार्यशील |
| 24 | आवेदिका श्रीमति साधना दिक्षित पति श्री शांतानु दिक्षित निवासी 08 आनंद नगर खण्डवा जिला खण्डवा                        | सिहाड़ा   | खण्डवा | 350  | 1.00 | पत्थर/गिट्टी     | 24.12.2020 से<br>23.12.2030 तक | निजी भूमि   | शिथिल    |
| 25 | श्री दादा जी स्टोन-क्रेशर प्रो. श्री रोहित परचानी एवं अन्य मकान नंबर 91 गली नंबर 03 सिंधी कालोनी खण्डवा जिला खण्डवा | टाकलीमोरी | खण्डवा | 353/1,<br>353/2,<br>354/1,<br>354/2          | 2.49 | पत्थर/ मुरुम     | 14.01.2020 से<br>13.01.2030 तक | निजी भूमि   | शिथिल    |
| 26 | श्री मुकेश पिता श्री प्रेमनारायण कंसल निवासी 27 शिवाजी मार्ग बडवाह जिला खरगोन                                       | मोरघडी    | पुनासा | 634/2<br>651<br>652<br>653/2<br>654/2<br>655 | 3.00 | पत्थर/<br>गिट्टी | 06.11.2017 से<br>05.11.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

64

|    |  |               |        |  |       |                |                                |           |          |
|----|--|---------------|--------|--|-------|----------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 27 | श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी पिता श्री मिट्टुलाल चन्द्रवंशी निवासी ग्राम एवं तहसील पुनासा जिला खण्डवा        | नांदखेडा रैयत | पुनासा | 165<br>166 / 2<br>166 / 4,168                                  | 3.540 | पत्थर / मुरुम  | 13.11.2017 से<br>12.11.2027 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 28 | पुरनी ईन्फ्रा इंडो प्रो. उत्तपालसिंह एवं मेसर्स गिरीधर पुरनी हाउस खण्डवा                                       | डाबरी रैयत    | पुनासा | 73 / 2, 75 / 8<br>एवं 74                                       | 1.90  | पत्थर / गिट्टी | 14.12.2017 से<br>13.02.2027 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 29 | पुरनी ईन्फ्रा इंडो प्रो. उत्तपालसिंह एवं मेसर्स गिरीधर पुरनी हाउस खण्डवा                                       | भगवानपुरा     | पुनासा | 4 / 3  | 4.00  | पत्थर / गिट्टी | 18.02.2016 से<br>17.02.2026 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 30 | श्री निलेश कुमार पटेल पिता श्री अरविन्द कुमार पटेल निवासी नर्मदा हास्पिटल के पास सनावद तहसील बड़वाह जिला खरगौन | मोरघड़ी       | पुनासा | 340 / 1,<br>340 / 2,<br>351 / 1, 338,<br>335, 320, 339,<br>337 | 3.00  | पत्थर / मुरुम  | 08.11.2016 से<br>07.11.2026 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 31 | श्री अतुल कुमार पिता श्री पुरुषोत्तम दास अजमेरा निवासी जैन कालोनी 103 सनावद जिला खरगौन                         | ईनपुन         | पुनासा | 325  | 2.00  | पत्थर / मुरुम  | 28.07.2014 से<br>29.07.2024 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 32 | श्री विशाल पिता श्री गिरधारी लाल सौनी निवासी 546 भवानी रोड़  | मोरघड़ी       | पुनासा | 358  | 2.20  | पत्थर / मुरुम  | 31.01.2014 से                  | निजी भूमि | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

65

|    |   |                     |        |                           |       |                  |                                |             |           |
|----|---|---------------------|--------|---------------------------|-------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|    | सनावद जिला खरगौन  |                     |        | 378                       |       |                  | 30.01.2024 तक                  |             |           |
| 33 | श्री धमेन्द्र पिता श्री यशवन्तसिंह सोलकी निवासी 09 खण्डवा रोड बालाजी आटोपाटर्स के पास सनावद जिला खरगौन      | हरवंशपुरा           | पुनासा | 41/1                      | 1.70  | पत्थर/<br>गिट्टी | 03.07.2015 से<br>02.07.2025 तक | निजी भूमि   | कार्यशील  |
| 34 | श्री दिग्विजय सिंह तोमर पिता श्री रुद्राशरण सिंह तोमर निवासी ग्राम गुजरखेड़ी तहसील पुनासा जिला खण्डवा       | नांदखेड़ा<br>रैय्यत | पुनासा | 187                       | 1.890 | पत्थर/<br>मुरुम  | 24.08.2021 से<br>23.08.2031 तक | निजी भूमि   | अकार्यशील |
| 35 | श्री अनुराग पिता कचरुमल बसंल निवासी रामकृष्ण गंज खण्डवा   | रामपुरी             | हरसुद  | 76                        | 3.350 | पत्थर/<br>गिट्टी | 22.02.2014 से<br>21.02.2024 तक | शासकीय भूमि | कार्यशील  |
| 36 | आवेदक श्री आशु जैन पिता श्री राजीव जैन निवासी म.न. 80, वार्ड नंबर 05 नरसिंह वार्ड हरदा तहसील हरदा जिला हरदा | मंजाधड              | हरसुद  | 75/1, 75/2,<br>75/3, 75/4 | 3.380 | पत्थर/<br>गिट्टी | 13.05.2021 से<br>12.05.2031 तक | निजी भूमि   | कार्यशील  |
| 37 | श्री सुरेश पिता श्री मनीराम जाट निवासी अबगाँवकला तहसील हडिंया जिला हरदा                                     | गम्भीर सर.          | हरसुद  | 453 398/3,<br>398/1       | 3.50  | पत्थर/<br>मुरुम  | 10.12.2015 से<br>09.12.2025 तक | निजी भूमि   | कार्यशील  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
भारत कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

66

|    |   |               |       |                  |      |                |                             |             |          |
|----|---|---------------|-------|------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 38 | श्री जयनारायण यादव पिता श्री तेजराम यादव निवासी सैदाबाद तहसील खालवा जिला खण्डवा   | जुनापानी      | खालवा | 351 / 1          | 8.65 | पत्थर / मुरुम  | 28.06.2018 से 25.06.2028 तक | शासकीय भूमि | शिथिल    |
| 39 | श्री राजेन्द्र सिंह किलेदार कन्स्ट्रक्शन प्रायेवेट लिमिटेड प्रो. राघवेन्द्र सिंह किलेदार निवासी तिलक नगर रोड सदर बैतुल (म.प्र.) | ढकोची         | खालवा | 403 / 1          | 1.35 | पत्थर / गिट्टी | 18.05.2017 से 17.05.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 40 | श्री अशोक कुमार पिता श्री घासीलाल वर्मा निवासी ग्राम खेडी तहसील खालवा जिला खण्डवा   | जुनापानी      | खालवा | 351 / 1          | 2.00 | पत्थर / गिट्टी | 23.09.2015 से 22.09.2025 तक | शासकीय भूमि | कार्यशील |
| 41 | श्रीमति सत्यभामा आदिवासी खनिकर्म उद्योग संस्था मर्यादित चीराखदान खण्डवा जिला खण्डवा   | जुनापानी      | खालवा | 405              | 4.00 | पत्थर / मुरुम  | 26.04.2016 से 25.04.2026 तक | शासकीय भूमि | शिथिल    |
| 42 | श्री आनंद कुमार गुप्ता लवकुश नगर खण्डवा जिला खण्डवा   | लंगोटी        | खालवा | 30 / 231         | 1.90 | पत्थर / गिट्टी | 18.05.2017 से 17.05.2027 तक | निजी भूमि   | कार्यशील |
| 43 | आवेदक श्री ऋषिकेश शर्मा पिता श्री रामजीलाल शर्मा निवासी कसेरा मोहल्ला गोलापुरा, हरदा तहसील                                      | लखनपुर रैय्यत | खालवा | 105 / 1, 105 / 2 | 2.07 | पत्थर / गिट्टी | 08.03.2021 से 07.03.2031    | निजी भूमि   | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
No. 5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

67

|    | एवं जिला हरदा   |                    |        |                                 |      |                |                                |           |          |
|----|---|--------------------|--------|---------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 44 | आवेदक श्री राधेश्याम अखण्डे पिता श्री श्यामलाल अखण्डे निवासी खमलाय तहसील खालवा जिला खण्डवा              | डाबिया             | खालवा  | 308 / 1 / 3<br>,338 / 3         | 1.51 | पत्थर / गिट्टी | 23.01.2021 से<br>22-01-2031 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 45 | श्री मुलचंद प्रजापति पिता श्री चुन्नीलाल प्रजापति निवासी खालवा जिला खण्डवा                              | ढकोची              | खालवा  | 40<br>3 / 2                     | 1.45 | पत्थर / गिट्टी | 26.04.2017 से<br>25.04.2027 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 46 | श्री भागचंद पिता श्री माणिकचंद नेमनानी निवासी पंधाना खण्डवा   | पंधाना             | पंधाना | 282 / 5                         | 3.50 | पत्थर / मुरुम  | 08.06.2016 से<br>07.06.2026 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 47 | श्री विवेक पिता श्री सुदेश मेहता निवासी एल.आई.सी. आफिस के पीछे खण्डवा                                   | बोरगांव<br>बुजुर्ग | पंधाना | 1542 / 2                        | 1.73 | पत्थर / गिट्टी | 09.08.2014 से<br>08.08.2024 तक | निजी भूमि | शिथिल    |
| 48 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णागंज अनाजमण्डी के पीछे खण्डवा जिला खण्डवा | गोराडिया           | पंधाना | 55 / 2, 55 / 1,<br>56 / 2,      | 2.15 | पत्थर / गिट्टी | 21.08.2018 से<br>20.08.2028 तक | निजी भूमि | कार्यशील |
| 49 | आवेदक श्री राकेश पटेल पिता श्री छीतर पटेल निवासी मलगांव तहसील एवं जिला खण्डवा                           | आबुद               | पंधाना | 372 / 1,<br>372 / 2,<br>372 / 4 | 1.55 | पत्थर / गिट्टी | 29.06.2021 से<br>28.06.2031 तक | निजी भूमि | कार्यशील |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
कार्से कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)






## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


69

### 10.DETAIL OF THE REVENUE AND ROYALTY MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT

Details of yearwise royalty generated in the last 3 years is as below:-

| COLLECTOR OFFICE (MIN.ADMIN.) DISTRICT KHANDWA(M.P.) |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| Sl.no.   | Yearwise  | Royalty         |
| 1  | 2019-2020 | 12,16,56,936.00 |
| 2  | 2020-2021 | 17,51,86,294.00 |
| 3  | 2021-2022 | 21,38,39,356.00 |

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वारंटे कलेक्टर  
जिल्हा पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)




## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


३०

### 11. DETAIL OF THE PRODUCTION OF MINOR MINERAL MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT

Detail of the production of minor minerals from the mines of the district Khandwa is given as below in table:-

| DESCRIPTION   |             | YEARWISE PRODUCTION IN CUBIC METER |           |           |
|---------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|               |             | 2019-2020                          | 2020-2021 | 2021-2022 |
| MINOR MINERAL | STONE CHIPS | 613431.60                          | 565421.93 | 813665.01 |
|               | STONE       | 752.00                             | 3990.00   | 17290.00  |
|               | MURUM       | 418496.00                          | 162687.12 | 106221.28 |
|               | SAND        | NIL                                | NIL       | NIL       |

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

31

### 12.LIST OF LETTER OF INTENT HOLDERS MINING LEASE LIST OF THE DISTRICT ALONG WITH THE VALIDITY

### 13. वैधता के साथ जिले में अंतिम इच्छुक धारकों की सूची।

#### तालिका संख्या-9

| क्रमांक | खनिज का नाम                 | पट्टाधारी का नाम व पता   | ग्राम का नाम | सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक | खसरा | रकबा हे० | प्रारंभिक पट्टे की अवधि |       | खदान की स्थिति अक्षांश/ देशांश   | खनन की विधि सतह पर या भूमिगत खनन |
|---------|-----------------------------|--|--------------|---|------|----------|-------------------------|-------|--|----------------------------------|
|         |                             |  |              |   |      |          | कब से                   | कब तक |  |                                  |
| 1       | 2                           | 3  | 4            | 5   | 6    | 7        | 8                       | 9     | 10   | 11                               |
| 1       | पथर/<br>गिट्टी,<br>एम-सेण्ड | श्री दादा जी स्टोन<br>क्रेशर प्रो. प्रीतम पटेल<br>एवं संदीप पटेल<br>एच-1 दीनदयालपुरम<br>खण्डवा | भैसावा       | 955/<br>16.11.2021                          | 20   | 3.00     | निरंक                   | निरंक | N 22°00'07.912"<br>E 76°31'28.816"<br>N 22°00'14.156"<br>E 76°31'36.600" | सतह पर                           |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
भारत कलेक्टर  
जिला पंच निभाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

72

|   |                                |   |           |                         |  |      |       |       |   |        |
|---|--------------------------------|---|-----------|-------------------------|--|------|-------|-------|---|--------|
| 2 | पत्थर/<br>गिट्टी, एम-<br>सेण्ड | आवेदक पुरनी इन्फ्रा0<br>इण्डिया प्रा0लि0<br>डायरेक्टर<br>उत्तमपालसिंह<br>पता- पुरनी हाऊस<br>पड़ावा रोड खण्डवा<br>जिला खण्डवा            | भगवानपुरा | 87-88 /<br>26.04.2022   | 9 / 1, 9 / 2,<br>9 / 4, 10 / 1                                       | 4.00 | निरंक | निरंक | निरंक   | सतह पर |
| 3 | पत्थर/<br>गिट्टी,<br>एम-सेण्ड  | आवेदक श्री अनिकेत<br>बंसल पिता श्री राकेश<br>बंसल<br>निवासी रामकृष्णगंज<br>अनाजमण्डी के पीछे<br>ओम निवास खण्डवा<br>जिला खण्डवा (म.प्र.) | डोटखेड़ा  | 526-27 /<br>16.08.2022  | 181 / 2,<br>181 / 3,<br>181 / 4,<br>182 / 1,<br>182 / 2, 183,<br>184 | 2.45 | निरंक | निरंक | निरंक   | सतह पर |
| 4 | मिट्टी चिमनी<br>भट्टा          | आवेदिका श्रीमति<br>कुलसुम निबरान पति<br>श्री शब्बीर निबरान<br>निवासी ग्राम रायपुर<br>तहसील खालवा जिला<br>खण्डवा                         | रायपुर    | 690-691 /<br>14.09.2022 | 68   | 1.39 | निरंक | निरंक | निरंक   | सतह पर |
| 5 | पत्थर/<br>गिट्टी,<br>एम-सेण्ड  | आवेदक श्री आदित्य<br>पाटील एवं सांरग<br>पाटीलनिवास ग्राम<br>अत्तर वार्ड नंबर -4,  | चिचगोहन   | 712-713 /<br>19.09.2022 | 275  | 2.92 | निरंक | निरंक | N 21°58'50.004"<br>E 76°10'22.830"<br>N 21°58'49.461"<br>E 76°10'28.511"<br>N 21°58'43.655" | सतह पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारंटे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

73

|   |               | चौधरी गली<br>तहसील एवं जिला<br>खण्डवा (म.प्र.)   |         |                              |          |      |       |       | E 76°10'27.865"<br>N 21°58'45.084"<br>E 76°10'22.449"  |        |
|---|---------------|--|---------|------------------------------|----------|------|-------|-------|--|--------|
| 7 | पत्थर / मुरुम | आवेदक फर्म खुशी<br>स्टोन-क्रेशर प्रो.<br>श्रीमति चारु यादव<br>पति श्री मनोज यादव<br>निवासी मकान नंबर<br>02 | नाहल्दा | 17962-63<br>/ 13.12.<br>2017 | 748, 749 | 4.60 | निरंक | निरंक | N 21°50'25.4"<br>E 76°24'37.5"<br>N 21°50'27.3"<br>E 76°24'44.0"<br>N 21°50'29.3"<br>E 76°24'51.6"<br>N 21°50'22.5"<br>E 76°24'56.3"<br>N 21°50'22.1"<br>E 76°24'55.1"<br>N 21°50'25.0"<br>E 76°24'54.4"<br>N 21°50'26.9"<br>E 76°24'48.3"<br>N 21°50'25.7"<br>E 76°24'41.5"<br>N 21°50'20.2"<br>E 76°24'41.4"<br>N 21°50'19.8"<br>E 76°24'39.2" | सतह पर |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक स्थिति अधिकारी  
वारन कलेक्टर  
जिला पत्र विभाग खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

74

|   |              |   |        |                            |    |      |       |       |  |        |
|---|--------------|---|--------|----------------------------|----|------|-------|-------|--|--------|
| 8 | पत्थर/गिट्टी | श्री राजेन्द्र प्रसाद<br>पिता श्री सिद्धीनारायण<br>तिवारी निवासी -जुनी<br>इन्दौर लाईन<br>धरमकाटा रोड़<br>खण्डवा | सिंगोट | 170-171/<br>21-05-20<br>21 | 98 | 1.00 | निरंक | निरंक | N 21°45'26.48"<br>E 76°29.28.78"<br>N 21°45'26.10"<br>E 76°29.29.16"<br>N 21°45'20.72"<br>E 76°29.25.76"<br>N 21°45'22.01"<br>E 76°29.23.21"<br>N 21°45'23.73"<br>E 76°29.24.29" | सतह पर |
|---|--------------|---|--------|----------------------------|----|------|-------|-------|--|--------|

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
घास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निहाड़ खण्डवा (स.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

75

### 13.DETAILS OF THE ECO-SENSITIVE AREA IF NAY IN THE DISTRICT

The district with a large forest covers but there area no declared ecologically sensitive areas as per the Guidelines of MOEF. Certain restrictions are binding as per the Forest Conservation Act, 1980 and provisions and activity within a stipulated distance from an and declaredas forest. More so provisions are made to get consent from high level committee before grant of any quarry lease within a distance of 250 M form forest. Even in a case of already granted areas of mining leases/ quarry lease or any activity directly or indirectly related to mining or any non-forest uses, Provisions are made and binding on the proponent to study the impact of non-forest activity mining of mineral and protect the ecological balance of the area.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

76

### 14.IMPACT ON THE ENVIRONMENT (AIR ,WATER NOISE,SOIL,FLORA AND FAUNA OF THE DISTRICT

While providing essential minerals for the use in our economies, uncontrolled mining can also have many adverse impacts on the environment and human health. Potential impacts include air and water pollution; mine waste disposal and land degradation. Hence, environmental impact assessment is essential.

The mining and allied activities in the project area have influence on environment attributes. These attributes include:

- Excavation
- Construction of approach road and haulage road
- Drilling and blasting
- Loading and Transportation
- Processing and sizing of ores
- Disposal of overburden waste ect.
- Stocking of low grade ores
- Site Preparation

Minerals are non-renewable and limited natural resources and constitute vital raw materials in a number of basic and important industries. The Excavation of minerals from nature often creates imbalance, which adversely affects the environment. The Key environmental impacts of mining are on wildlife and fishery habitats, the water balance, local climates & the pattern of rainfall, sedimentation, the depletion of forests and the disruption of the ecology, Mining activities including prospecting, exploration, construction, operation, maintenance, expansion, abandonment, decommissioning and repurposing of a mine can impact social and environmental systems in a range of positive and negative and direct and indirect ways. Mine exploration and construction, operation and maintenance may result in land-use change, and may have associated negative impacts on environments.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

77


including deforestation, erosion, contamination and alteration of soil profiles, contamination of local streams and wetlands, and an increase in noise level, dust and emissions. Mine abandonment, decommissioning and repurposing may also result in similar significant environment impacts, such as soil and water contamination. Beyond the mines themselves, infrastructures built to support mining activities such as roads, ports, railway tracks and power lines can effect migratory routes of animals and increase habitat fragmentation. Mining can also have positive and negative impacts on humans and societies. Negative impacts include those on human health and living standards, for example, Mining is also known to effect traditional practices of Indigenous peoples living in nearby communities, and conflicts in land use are also often present, as are other social impacts, including those related to public health and human well being.


### Ecological Impacts of Opencast Mining:

1. Removal of all vegetation (flora) and thereby fauna from the area required for mining and other purpose.
2. Pollution of water in the surrounding water bodies due to leaching from overburden dumps and due to the pollutants from the other activities. This affects the aquatic ecology of these water bodies.
3. Dust in atmosphere, contributed by mining and associated activities, when deposited on the leaves of the plants in the surrounding areas may retard their growth.
4. Noise and vibrations due to blasting and operation of the machines drive away the wild animals and birds from the nearby forests.
5. Water scarcity caused due to the impacts of opencast mining on water regime affects the growth of vegetation and agriculture in and around the complexes.

### Ecological Impacts of mineral handling and preparation:

1. Land clearance of almost all vegetation in the area earmarked for the construction of the mineral handling and preparation units.
2. Disturbances to fauna of the nearby areas from the noise and vibrations from the mineral handling and preparation units.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक सचिव अतिरिक्त  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

78

3. Impacts on aquatic ecology due to discharge of effluents from the units.
4. Retardation in vegetation growth in neighboring areas due to deposition of dust on the leaves.

### Ecological Impacts of other activities:

1. The growth of mining complexes need land and thus affects the ecology of the land and the surrounding areas.
2. Cutting and felling of the trees to meet the timber requirement for various purpose
3. Other impacts are similar to those of the activities mentioned below:

### Action to Minimize the Impacts:

It is evident that mining and associated activities have considered impacts on the ecology of the mining and the surrounding areas. These impacts are evident in most of the mining complexes in the country. In order to minimize the impacts the following actions can be thought out:

1. Plan the mining layout so as to have the least requirement of the forest land and take necessary steps for reclamation of the mines out land so that the forest land taken for the mining purpose can be brought back to forest use.
2. Develop a suitable compensatory forest.
3. Cut the trees to the minimum possible extent and to preserve the flora it would be appropriate to uproot the trees and plants and then establish them at suitable locations, may be in the areas for compensatory afforestation.
4. Develop a flora bank to preserve the typical floral species of the areas so that these can be replanted and developed as and when needed.
5. Surface layout of the mining complexes be designed to have the least impacts on the ecology of the area.
6. The noise and vibration producing activities in the mines and the associated activities be planned to have the minimum possible intensity and impact on the wild life in the surrounding area.

State Level Environmental  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
- 5, Ansa Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिल्हा सर्वेक्षण निमाड खंडवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

79

### 15.RISK ASSESSMENT NAD DISASTER MANAGEMENT

In the mining operations, whether opencast and / or underground, work safety is taken care by the Mines Act, the Coal Mines Regulations, 1957 and Rules framed there under. The risk to genral public in the present case may arise from the following:

- I. Failure of dumps created by stones dug from the incline cutting.
- II. Flyrocks during blasting operations, while driving inclines
- III. Plying of trucks ect on public roads.

Risk assessment is all about prevention of accidents and there is a need to be aware that there is the risk of an accident before steps can be taken to prevent it happening. It may not always be obvious that a workplace task could lead to an accident. This is why risk assessments are carried out. In risk assessment the words Hazards and Risks are often used. The Hazards and Risks are defined as below:


1. A hazard is anything that has the potential to cause harm.
2. The risk is how likely it is that a hazard will cause actual harm.

#### Control Measures:

In order to take of hazard/ disasters, the following control measures will be adopted:

##### A. General Measures

- All safety precautions and provisions of the Mines Act, 1955, the Caol Mines Regulations, 197 and the Mines Rules, 1952 will be strictly followd during all mining operations.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

80

- Entry of unauthorized persons will be prohibited.
- Fire fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area.
- Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, ect, will be made available to the employees and regular check for their use.
- Initial training and refresher courses for all the employees working in hazardous. Premises, Under mines rules all employees of mines shall have to undergo the training at a regular interval.
- Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.
- Cleaning of mine faces will be regularly done.
- Handling of explosives, charging and blasting will be carried out by competent arrangement.
- Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufactures guidelines.
- Suppression of dust on the haulage roads.
- Adequate safety equipment will be provided at explosive magazine.
- Increasing the awareness of safety of disaster through competitions, posters, and other similar drives.

### B.Activity Specific Measures

Blasting:- Most of the accidents from blasting occur due to the projectiles, as they may some times go even beyond the danger zone, mainly due to overcharging of the shotholes as a result of certain special features of the local ground. Vibrations also lead to displacement of adjoin areas. Dust and noise area also problems commonly encountered during blasting operations.

### Measures during Drilling and Blasting

Drilling and blasting in quarry shall be done in accordance with the provisions of Mines Act, rules and regulations. Adequate safety measures will be taken during blasting operations in the quarry so that men/machines are not affected.

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
C-5, Anara Colony, Bhopal

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

81

Ground Vibration due to blasting will be controlled by following

1. Reducing the explosive charge per delay
2. Reducing the spacing and burden per blast.
3. Reducing the amount of explosive charged per blast.
4. Proper controlled rock movement during blast by using suitable initiating sequence and delay
  - Shots will not be fired except during the hours of day light or until adequate provision is made for artificial lighting and the holes charged on a particular day will be fired on the same day.
  - Adequate shelters or other protective structures will be provided to the workers at all times.
  - The shot fire will give sufficient warning by effective signal over the entire area falling within a radius of 500m
  - If a single shot exploder is used exploder is used or if blasting is done with ordinary detonator, the shifirer will not fire more than fifty shots in one shift, but if multishot exploder is used, the number can go up to eighty and
  - During the approach and progress of an electrical storm, adequate precaution will be taken.

**Overburden Dumps :**The overburden dumps may cause landslides High overburden dumps created at the quarry edge may cause sliding of the overburden dump or may cause failure of the pit slope due to excessive loading thereby acusing loss of life and property.

### **Measures to prevent the damage of Overburdern :**

- A stone wall should be built around the toe of each active dump at a distance of aabout 50m fro the toe.
- To prevent the failure of the overburden slopes sepcillay during the rainy seasn the following precaution will be taken

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


82


1. Proper terracing of the dump slopes with a maximum bench height of 30 m
2. In flat areas where the dumping operation have come to and end the overall slopes angle should be flatended.
  - Planting vegetation as early as possible overburden dumpe slopes.
  - Provide drainage channels along the overburden dump toe for additional protection in such a way that a distance of 15m should be maintained left between the verburden dump and the bench.
  - If a mine is abandoned, the bnech and overburden dump should be separated from each other by digging a trench of 6 to 10 m width

**Heavy Machinery:** Most of the accident during transport of dumpers, trucks proclaims and ripper dozers and over heavy vehicles are often attributable to mechanical failure and human errors.

### Measures to Prevent Accidenst due to Trucks nad Dumpers :

- All transportation within the main working area should be carried out under the direct supervision and control of the management.
- The Vehicals must be maintained in good repairs and checked thoroughly at least once a week by a competent person authorizedfor this purpose by the management.
- Board signs should be provided at each and every turning point specially for the guidance of the driver at night.
- To avoid dangers while reversing the trackless vehicles, especially at the embankment and tripping points. All areas for reverisng of lorries should as far as possible be made man free and there should be a light and sound device to indicate reversing of trucks.
- A statutory provision of the fence, constant education , traning etc will go a long way in reducing the incidence of such accidents.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी  
रास्ते कलक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

83

**Water logging :** Water logging in the mine site can be avoided by adopting following measures.


- Position of water body should be correctly known
- Draning of mine water by suitable capacity pumps.


### Disaster Mangement Plan :

**Objectives:** The disaster management plan is aimed to ensure safetu of life , protection of environment, protection of installation, restoreation of production and salvage operation in thses same order of priorities. For effective implementation of the disaster management plan, it should be widely circulated and personal training through rehearsals/ drills. The objective of the disaster management plan is to make use of the combined resources of the mineand the outside servives to achive the following:

1. Effect the rescue and medical treatment of casualities
2. Safeguard other people
3. Minimize damage to property and the environment;
4. Initsilly contain and ultimately bring the incident under control
5. Indentity any dead
6. Proved for the needs of relatives
7. Provide authoritative information to the news media
8. Secure the safe rehabilitation of affected area .
9. Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and circumsatnces of the energy

In effect, it is to optimize operational efficiency to resecue rehabilitation and render medical help and to restore normalcy.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्ट्रेट  
जिला पूर्ण निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

84

### 16.DETAIL OF THE HEALTH ISSUES IN THE DISTRICT

Silicosis is an occupational disease which profoundly affects the work productivity, economic and social well-being of workers, their families and dependents. It is a disease of the lungs. Continuous exposure to dust, silica, cement mines and fine glass particles inhaled while working in places such as stone or cement mines results in their build-up in the lungs. The disease is caused by exposure to silica, which is released as dust particles when engineered stone is mined or cut, drilled and polished. The patient's physical stamina dwindles over a period of time; he gets progressively weaker and eventually succumbs to death. The gravity of silicosis can be assessed from the fact that its patients have little hope of survival. They are left with no alternative other than to die a slow and painful death. The problematic areas are areas of flagstone, granite and marble cutting/ polishing units and mines, slate mining majorly. The Hindu Daily newspaper on sept 28, 2019 quoted " Miners of Ganj Basoda district in Madhya Pradesh suffering from silicosis on Friday decided to organize themselves to press for adequate compensation and appeal to the government for right treatment, instead of being treated for tuberculosis. Around 10,000 miners from 40 villages in the district have been facing the threat of the respiratory disease, said activist Pramod Pateriya in Bhopal. An occupational disease, silicosis is more prevalent among miners who are exposed to dust containing crystallised silica. Over time, it could build up in lungs cause body coughing and breathlessness. Mothers usually take their children to sites where they break smaller stones.

The patient's physical stamina dwindles over a period of time, he gets progressively weaker and eventually succumbs to death. The gravity of silicosis can be assessed from the fact that its patients have little hope of survival. They are left with no alternative other than to die a slow and painful death. The dust hazards known as pneumoconiosis in industrial workers has existed for centuries. Various physical properties and chemical components of dust produce different changes in the lungs. Silicosis is the main offender and is the most common of all pneumoconiosis. Improvement in the industrial hygiene, techniques such as wet drilling, efficient ventilation,

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parvavaran Parisar  
Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


85

personal protection and in some countries the use of aluminium dust for prophylaxis have prevented silicosis to some extent. In India, small-scale industries/mines are largely devoid of these preventive measures. There is a need to conduct detailed studies regarding the condition of mine area environment and mine related diseases. The National Human Rights Commission India (NHRC) published a detailed report in 2016 on the basis of studies they carried out, through it was mainly regarding dressed stone mining and cutting/ pencil workers. But is directly or indirectly related to or the suggestive measures may prove to be highly effective in dealing with the remedial measures. The report is an eye opener. Its guidelines and measures may prove to be highly effective to control the mines related disease and they should also be implemented and should also be part of mine planning ( Courtesy: NHRC\_Interventions\_ on\_Silicosis\_27122016.PDF). The Department of health & family welfare, Govt. of Madhya Pradesh initiated state strategic Plan for TB elimination in Madhya Pradesh.

**SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY:** Every proponent should envisaged to take up the following precautionary measures;

- Strict observance of the provisions of the Acts, Rules and Regulations in respect of safety both the management and the workers.
- Proper planning and designing of work in order to reduce the risk of hazards
- Specific instruction and supervision of working where danger due to fall of site.
- Training of work persons and the officials occupational health and organizational setup has been established through OMDC to comply the general health standards of the workers and the nearby villagers by undertaking occupational health surveillance on regular basis as a part and parcel of OHS and environmental management program in line with EIA/EMP. The project proponent should do health survey of mine workers and its surrounding villagers to know the health status of mine workers as well as surrounding villagers. As per district medical officer report, there is not a single case of tuberculosis & silicosis has been reported.

  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वारसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निवाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

86

**Table No.11**

| <u>Year</u> | <u>NO.OF PATIENTS TUBERCULOSIS</u> | <u>NO OF PATIENTS SILICOSIS</u> |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <u>2016</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2017</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2018</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2019</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2020</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2021</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |
| <u>2022</u> | <u>NIL</u>                         | <u>NIL</u>                      |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकार  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निभाड खण्डवा (म.प्र.)



# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

87

## 17. PLANTATION THE DISTRICT

तालिका संख्या. 12 वृक्षारोपण विवरण पत्थर / गिट्टी

| क्रमांक | पट्टाधारी का नाम   | खनिज का नाम    | स्वीकृत खसरा      | रकबा हे० | ग्राम            | तहसील  | खदान क्षेत्र में लगाये गये पैधों की संख्या |
|---------|--|----------------|-------------------|----------|------------------|--------|--|
| 1       | श्री राकेश पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्ण गंज खण्डवा जिला खण्डवा                      | पत्थर / गिट्टी | 1189, 1190, 1214  | 7.49     | देशगॉाव          | खण्डवा | 2000                                       |
| 2       | श्री राकेश बंसल निवासी रामकृष्ण गंज जिला खण्डवा  | पत्थर / मुरुम  | 768<br>769<br>770 | 3.00     | केहलारी          | खण्डवा | 150  |
| 3       | श्री आशुतोष पिता श्री नंगीनचन्द बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाज मंडी के पिछे खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर / गिट्टी | 56,104            | 14.150   | वीरपुरकुण्डेश्वर | खण्डवा | 1000                                       |
| 4       | श्री छगन ऐतालकर पिता श्री देवराम ऐतालकर निवासी रामनगर खण्डवा जिला खण्डवा                     | पत्थर / गिट्टी | 748               | 2.00     | नहाल्दा          | खण्डवा | 80   |
| 5       | श्री राकेश बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाज मंडी के पीछे खण्डवा            | पत्थर / गिट्टी | 47                | 2.41     | भोजाखेडी         | खण्डवा | 100  |
| 6       | श्री अशोक पिता श्री देवराम ऐतालकर निवासी एम.आई.जी. 398 रामनगर खण्डवा जिला खण्डवा             | पत्थर / गिट्टी | 56                | 4.00     | रुंधी            | खण्डवा | 110  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकार  
वारन्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व विघाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

88

|    |  |                |   |       |            |        |     |
|----|--|----------------|---|-------|------------|--------|-----|
| 7  | आवेदक कृष्णा स्टोन-क्रेशर पार्टनर श्री भारत मेघवानी पिता श्री चन्द्रभान मेघवानी निवासी 341 विद्या नगर खण्डवा एवं रोहित परचानी पिता श्री राजेश परचानी निवासी सिंधी कालोनी खण्डवा (म.प्र.) | पत्थर / मुरुम  | 59 / 02   | 1.00  | ढोरानी     | खण्डवा | 500 |
| 8  | पुरनी ईन्फा इं० प्रा० लि० पुरनी हाउस पडावा रोड खण्डवा प्रो. उत्तपालसिंह  | पत्थर / गिट्टी | 29 / 1, 29 / 2, 6                               | 5.74  | मथेला      | खण्डवा | 300 |
| 9  | मेसर्स नर्मदा रिसोर्स पार्टनर श्री हरितपालसिंह होरा निवासी 191-ट्रांसपोर्ट नगर, मेन रोड इन्दोर जिला इन्दोर   | पत्थर / गिट्टी | 1 / 1, 1 / 2, 1 / 3, 2 / 1, 3 / 1, 3 / 2, 3 / 3 | 4.00  | बामझर      | खण्डवा | 200 |
| 10 | श्री अनिल बौरासी पिता श्रीराम बौरासी निवासी मकान नंबर 02 गणेश कालोनी भण्डारिया रोड खण्डवा  | पत्थर / गिट्टी | 178 / 1, 178 / 2, 179, 182, 177                 | 5.630 | पिपल्याकला | खण्डवा | 200 |
| 11 | आवेदक श्री अमन कनोजिया पिता श्री अशोक कनोजिया वार्ड नंबर 02 मस्जिद के पास गणेश तलाई खण्डवा जिला खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 1213  | 4.10  | सिंगोट     | खण्डवा | 60  |
| 12 | श्री आशीष यादव पिता स्व. श्री हुकुमचंद यादव निवासी लक्कड़ बाजार (मंगल भवन) खण्डवा तहसील एवं जिला खण्डवा  | पत्थर / गिट्टी | 856, 857, 861                                   | 1.440 | सिंगोट     | खण्डवा | 50  |
| 13 | श्री अंशुल कोठारी पिता श्री सुभाष कोठारी निवासी शास्त्री तहसील एवं जिला खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 820   | 1.950 | ढोढवाड़ा   | खण्डवा | 100 |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
C-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक सनिनित्र अधिकारी  
वारसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

89

|    |  |                |                                    |       |                  |        |     |
|----|--|----------------|------------------------------------|-------|------------------|--------|-----|
| 14 | श्री अंशुल कोठारी पिता श्री सुभाष कोठारी निवासी शास्त्री तहसील एवं जिला खण्डवा                         | पत्थर / मुरुम  | 820                                | 2.070 | ढोढवाड़ा         | खण्डवा | 100 |
| 15 | श्री दादा जी स्टोन क्रेशर प्रो. प्रीतम पटेल एवं संदीप पटेल एच-1 दीनदयालपुरम खण्डवा                     | पत्थर / गिट्टी | 185                                | 1.25  | भैसावा           | खण्डवा | 50  |
| 16 | मेसर्स बालाजी क्रेशर एण्ड डव्हलपर्स खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 43 / 1                             | 0.90  | सिहाड़ा          | खण्डवा | 60  |
| 17 | श्री सोहेल जैदी निवासी 36 गली नंबर 01 हातमपुरा चौक खण्डवा जिला -खण्डवा                                 | पत्थर / गिट्टी | 37                                 | 1.740 | सिहाड़ा          | खण्डवा | 78  |
| 18 | श्री तुलसीदास पटेल निवासी ग्राम गुडीखेड़ा तहसील एवं जिला खण्डवा  | पत्थर / गिट्टी | 92                                 | 3.970 | बामन्दा          | खण्डवा | 250 |
| 19 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर / गिट्टी | 504, 505, 506 / 1, 506 / 2 525     | 4.80  | रेवाड़ा          | खण्डवा | 200 |
| 20 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर / गिट्टी | 96                                 | 4.80  | वीरपुरकुण्डेश्वर | खण्डवा | 200 |
| 21 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर / गिट्टी | 57 / 2 / 1, 57 / 2 / 2, 57 / 3, 84 | 4.190 | वीरपुरकुण्डेश्वर | खण्डवा | 200 |

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वारसे कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

90

|    |   |               |  |       |                |        |      |
|----|---|---------------|--|-------|----------------|--------|------|
| 22 | श्री कैलाश सिंह राठौर निवासी खण्डवा   | पत्थर/ गिट्टी | 695  | 1.72  | खिड़गांव       | खण्डवा | 250  |
| 23 | श्री कैलाश सिंह राठौर निवासी खण्डवा   | पत्थर/ गिट्टी | 748  | 4.00  | खिड़गांव       | खण्डवा | 150  |
| 24 | आवेदिका श्रीमति साधना दिक्षित पति श्री शांतानु दिक्षित निवासी 08 आनंद नगर खण्डवा जिला खण्डवा                        | पत्थर/ मुरुम  | 350  | 1.00  | सिहाड़ा        | खण्डवा | 100  |
| 25 | श्री दादा जी स्टोन-क्रेशर प्रो. श्री रोहित परचानी एवं अन्य मकान नंबर 91 गली नंबर 03 सिंधी कालोनी खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर/ गिट्टी | 353/1, 353/2, 354/1, 354/2                   | 2.49  | टाकलीमोरी      | खण्डवा | 150  |
| 26 | श्री मुकेश पिता श्री प्रेमनारायण कंसल निवासी 27 शिवाजी मार्ग बडवाह जिला खरगोन                                       | पत्थर/ मुरुम  | 634/2, 651, 652, 653/2 654/2, 655            | 3.00  | मोरघडी         | पुनासा | 80   |
| 27 | श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी पिता श्री मिट्ठुलाल चन्द्रवंशी निवासी ग्राम एवं तहसील पुनासा जिला खण्डवा             | पत्थर/ गिट्टी | 165, 166/2, 166/4, 168                       | 3.540 | नांदखेड़ा रैयत | पुनासा | 500  |
| 28 | पुरनी ईन्फा इं0 प्रा0 लि0 प्रो. उत्तपालसिंह एवं मेसर्स गिरीधर पुरनी हाउस खण्डवा                                     | पत्थर/ गिट्टी | 73/2, 75/8 एवं 74                            | 1.90  | डाबरी रैयत     | पुनासा | 2000 |
| 29 | पुरनी ईन्फा इं0 प्रा0 लि0 प्रो. उत्तपालसिंह एवं मेसर्स गिरीधर पुरनी हाउस खण्डवा                                     | पत्थर/ मुरुम  | 4/3  | 4.00  | भगवानपुरा      | पुनासा | 1000 |
| 30 | श्री निलेश कुमार पटेल पिता श्री अरविन्द कुमार पटेल निवासी नर्मदा हास्पिटल के पास सनावद तहसील बडवाह जिला खरगोन       | पत्थर/ मुरुम  | 340/1, 340/2, 351/1, 338, 335, 320, 339, 337 | 3.00  | मोरघडी         | पुनासा | 50   |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकार  
वारंटे कलेक्टर  
जिला पूर्व निगाड खण्डवा (म.प्र.)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

91

|    |   |               |                           |       |                  |        |      |
|----|---|---------------|---------------------------|-------|------------------|--------|------|
| 31 | श्री अतुल कुमार पिता श्री पुरुषोत्तम दास अजमेरा निवासी जैन कालोनी 103 सनावद जिला खरगौन                      | पत्थर/ मुरुम  | 325                       | 2.00  | ईनपुन            | पुनासा | 240  |
| 32 | श्री विशाल पिता श्री गिरधारी लाल सौनी निवासी 546 भवानी रोड़ सनावद जिला खरगौन                                | पत्थर/ गिट्टी | 358<br>378                | 2.20  | मोरघडी           | पुनासा | 1500 |
| 33 | श्री धमेन्द्र पिता श्री यशवन्तसिंह सोलकी निवासी 09 खण्डवा रोड़ बालाजी आटोपाटर्स के पास सनावद जिला खरगौन     | पत्थर/ गिट्टी | 41/1                      | 1.70  | हरवंशपुरा        | पुनासा | 150  |
| 34 | श्री दिग्विजय सिंह तोमर पिता श्री रुद्राशरण सिंह तोमर निवासी ग्राम गुजरखेड़ी तहसील पुनासा जिला खण्डवा       | पत्थर/ मुरुम  | 187                       | 1.890 | नादंखेड़ा रैय्यत | पुनासा | 400  |
| 35 | श्री अनुराग पिता कचरुमल बसंल निवासी रामकृष्ण गंज खण्डवा   | पत्थर/ गिट्टी | 76                        | 3.350 | रामपुरी          | हरसुद  | 1000 |
| 36 | आवेदक श्री आशु जैन पिता श्री राजीव जैन निवासी म.न. 80, वार्ड नंबर 05 नरसिंह वार्ड हरदा तहसील हरदा जिला हरदा | पत्थर/ मुरुम  | 75/1, 75/2, 75/3,<br>75/4 | 3.380 | मंजाधड           | हरसुद  | 50   |
| 37 | श्री सुरेश पिता श्री मनीराम जाट निवासी अबगाँवकला तहसील हडिंया जिला हरदा                                     | पत्थर/ मुरुम  | 453 398/3, 398/1          | 3.50  | गम्भीर सर.       | हरसुद  | 180  |
| 38 | श्री जयनारायण यादव पिता श्री तेजराम यादव निवासी सैदाबाद तहसील खालवा जिला खण्डवा                             | पत्थर/ गिट्टी | 351/1                     | 8.65  | जुनापानी         | खालवा  | 80   |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
कार्ते कलेक्टर  
खिसा पूर्व निमाड खण्डवा (म प्र)



## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

92

|    |   |                |                       |      |                 |        |     |
|----|---|----------------|-----------------------|------|-----------------|--------|-----|
| 39 | श्री राजेन्द्र सिंह किलेदार कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड प्रो. राघवेन्द्र सिंह किलेदार निवासी तिलक नगर रोड़ सदर बैतुल (म.प्र.) | पत्थर / गिट्टी | 403 / 1               | 1.35 | ढकोची           | खालवा  | 50  |
| 40 | श्री अशोक कुमार पिता श्री घासीलाल वर्मा निवासी ग्राम खेड़ी तहसील खालवा जिला खण्डवा  | पत्थर / मुरुम  | 351 / 1               | 2.00 | जूनापानी        | खालवा  | 110 |
| 41 | श्रीमति सत्यभामा आदिवासी खनिकर्म उद्योग संस्था मर्यादित चीराखदान खण्डवा जिला खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 405                   | 4.00 | जूनापानी        | खालवा  | 50  |
| 42 | श्री आनंद कुमार गुप्ता लवकुश नगर खण्डवा जिला खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 30 / 231              | 1.90 | लंगोटी          | खालवा  | 70  |
| 43 | आवेदक श्री ऋषिकेश शर्मा पिता श्री रामजीलाल शर्मा निवासी कसेरा मोहल्ला गोलापुरा, हरदा तहसील एवं जिला हरदा                        | पत्थर / गिट्टी | 105 / 1, 105 / 2      | 2.07 | लखनपुर रैयत     | खालवा  | 150 |
| 44 | आवेदक श्री राधेश्याम अखण्डे पिता श्री श्यामलाल अखण्डे निवासी खमलाय तहसील खालवा जिला खण्डवा                                      | पत्थर / गिट्टी | 308 / 1 / 3 , 338 / 3 | 1.51 | डाबिया          | खालवा  | 50  |
| 45 | श्री मुलचंद प्रजापति पिता श्री चुन्नीलाल प्रजापति निवासी खालवा जिला खण्डवा  | पत्थर / मुरुम  | 40<br>3 / 2           | 1.45 | ढकोची           | खालवा  | 600 |
| 46 | श्री भागचंद पिता श्री माणिकचंद नेमनानी निवासी पंधाना खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 282 / 5               | 3.50 | पंधाना          | पंधाना | 250 |
| 47 | श्री विवेक पिता श्री सुदेश मेहता निवासी एल.आई.सी. आफिस के पीछे खण्डवा   | पत्थर / गिट्टी | 1542 / 2              | 1.73 | बोरगांव बुजुर्ग | पंधाना | 50  |

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक स्थानिक अधिकारी  
वास्तु कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023


93

|    |  |               |                     |      |          |        |     |
|----|--|---------------|---------------------|------|----------|--------|-----|
| 48 | आवेदक श्री नगीनचन्द बंसल पिता श्री कचरुमल बंसल निवासी रामकृष्णगंज अनाजमण्डी के पीछे खण्डवा जिला खण्डवा | पत्थर/गिट्टी  | 55/2, 55/1, 56/2,   | 2.15 | गोराडिया | पंधाना | 400 |
| 49 | आवेदक श्री राकेश पटेल पिता श्री छीतर पटेल निवासी मलगांव तहसील एवं जिला खण्डवा                          | पत्थर/ गिट्टी | 372/1, 372/2, 372/4 | 1.55 | आबुद     | पंधाना | 600 |

Above is the details of plantation done by the lease holders of Khandwa. About 16248 numbers of plants had been planted. The plantation photos as given below :-



  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
हाराक खनिज अधिकार  
वास्ते कलेक्टर  
जिला एवं निमाड खण्डवा (म.प्र.)







# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

94



  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
- 5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

95



*[Signature]*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

*[Signature]*  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)






# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

96



  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)




## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

९७



  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Area Colony, Bhopal (M.P.)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

98



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म प्र)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

११



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, 6 Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज आधेकर  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

100



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parvavaran Parisar  
E-5, Atcharya Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ती कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

101



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
[Address] Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वाणी कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खंडवा (म.प्र.)





## जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

102



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

103



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)





# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट: खंडवा-2022-2023

104



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

राज्यक खनिज अधिकारी  
घास्ते कलेक्टर  
जिला पूर्व निमाड खण्डवा (म.प्र.)